

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 6—दिसम्बर 12, 2014 (अग्रहायण 15, 1936)

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 6—DECEMBER 12, 2014 (AGRAHAYANA 15, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 नवम्बर 2014

सं. डीपीपर्स-12014/95/3/76/2010—श्री सुभाष चंद्र गुप्ता ने अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर दिनांक 31.10.2014 के अपराहन से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

सं. डीपीपर्स-12014/97/3/101/2010—श्री एन. एस. यादव ने अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर, दिनांक 31.10.2014 के अपराहन से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

गृह मंत्रालय
महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 नवम्बर 2014

सं. पी.सात-1/2014-मंत्रालयिक—सूबेदार मेजर (स्टेनो) से सहायक कमाण्डेन्ट (निजी सचिव) के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप निम्नलिखित सूबेदार मेजर (स्टेनो) ने प्रत्येक के सामने दर्शाए गए कार्यालयों में दर्शाई गई तिथियों को सहायक कमाण्डेन्ट (निजी सचिव) का कार्यभार ग्रहण कर लिया है :—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय जहाँ कार्यभार संभाला	कार्यग्रहण करने की तिथि
1.	श्री निर्मल सिंह, सहायक कमाण्डेन्ट (निजी सचिव), ईरला-10354	कार्यालय पुलिस विशेष महानिदेशक, जम्मू-काश्मीर जोन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, जम्मू।	08.09.2014 (पूर्वा.)
2.	श्री के. गिरीधर सहायक कमाण्डेन्ट (निजी सचिव), ईरला-10355	कार्यालय पुलिस विशेष महानिदेशक, जम्मू-काश्मीर जोन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, जम्मू।	16.09.2014 (पूर्वा.)

एस. के. उपाध्याय
पु. उप. महा. (संगठन)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 नवम्बर 2014

सं. ओ.दो.4007/2014-कार्मिक (चि.अ.)—राष्ट्रपति जी, डॉ. चन्द्रिमा कार को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपए 15,600—39,100/- के वेतनमान (साथ में रु. 6,600/- ग्रेड वेतन) में विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी (गैनेकोलजिस्ट)/ (उप कमाण्डेन्ट) के पद पर बल की नफरी में दिनांक 07.11.2014 (पूर्वाहन) से, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. सी. पॅवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 21 नवम्बर 2014

सं. ओ.दो.3638/03-कार्मिक(चिकित्सा)—सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. अशोक कुमार शर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी (ओजी), ईरला-5985, 83 बटालियन, के.रि.पु.बल द्वारा दिनांक 19.05.2014 (अपराहन) को अपना चार्ज सौंप दिया गया है। तदनुसार, उक्त अधिकारी का नाम इस बल की नफरी से उसी तिथि अर्थात् दिनांक 19.05.2014 (अपराहन) से हटाया जाता है।

एम. सी. पॅवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 12 नवम्बर 2014

सं. प्रशा.-I/का.आ.सं.-66—इस कार्यालय के श्री चमन भण्डारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) वार्धक्य की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप दिनांक 30.11.2014 (अपराहन) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

उनकी जन्म तिथि 15.11.1954 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ की तिथि 25.03.1983 है।

हस्ता./—अपठनीय
निदेशक (प्रशासन)

महालेखाकार (ले एवं ह) का कार्यालय, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना

हैदराबाद-500004, दिनांक 18 नवम्बर 2014

सं. प्रशा.-I/ले.वह./I/4-26/2014-15/23068—निम्नलिखित तदर्थ सहायक लेखा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख बताई गई तिथि से रु. 4,800/- की ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड रु. 9,300—34,800/- में सहायक लेखा अधिकारियों के रूप में कार्य करने की सहर्ष अनुमति महालेखाकार (ले एवं ह) आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, हैदराबाद ने प्रदान की है।

क्र.सं.	नाम (श्री/सुश्री)	का.आ.संख्या तथा दिनांक	स.ले.अ. के रूप में कार्यभार संभालने की तिथि
1.	जी. राजलक्ष्मी	प्रशा-1/यू-1/4-26/2014-15/109, दि. 03.11.2014	03.11.2014 (पूर्वाह्न)
2.	ए. वी. आर. एन. श्रीनिवास	प्रशा-1/यू-1/4-26/2014-15/109, दि. 03.11.2014	03.11.2014 (पूर्वाह्न)

यह नियमितीकरण उनके वरिष्ठ द्वारा दायर दावों और पूर्वाग्रह के बिना, अगर कोई है तो, तथा आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट/केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों में लंबित रिट याचिका के निर्णय के तहत होगा।

हस्ता./—अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (सा. एवं सा.क्षे.ले.प.) का कार्यालय
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना

हैदराबाद-500004, दिनांक 19 नवम्बर 2014

सं. प्रशा.-I/परी./8-132/एफ. 61-ए/2014-15/55—श्रीमती प्रसन्ना कुमारी एम्, इस कार्यालय के वरिष्ठ निजी सचिव का 01.10.2014 को निधन हो गया।

अनीता बालाकृष्णा
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशा.-I/पदो./8-132/एफ. 61-ए/2014-15/56—प्रधान महालेखाकार ने सहर्ष निम्नलिखित निजी सहायक को रु. 4,600/- के ग्रेड वेतन सहित रु. 9,300—34,800/- के वेतन बैंड-2 के स्थानापन्न निजी सचिव के रूप में पदोन्नत किया है, जो कि उनके नाम के आगे दी हुई तिथि से प्रभावी होगा।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/कु./सु.)	का. आदेश सं./दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने क तिथि
1.	विजया लक्ष्मी पी	100/12.11.2014	12.11.2014 FN

उपरोक्त प्रोन्नति आदेश उनके वरिष्ठों के दावों, यदि कोई हो, के प्रति पक्षपात से रहित है तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत के सर्वोच्च न्यायालय/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण इत्यादि में लंबित रिट याचिकाओं, यदि कोई हो, के परिणाम के अधीन है।

कर्मचारी, वेतन के पुनः निर्धारण के पात्र नहीं हैं क्योंकि एम.ए.सी.पी. के तहत उन्हें पहले ही रु. 4,600/- के ग्रेड वेतन के साथ रु. 9,300—34,800/- के पे बैंड-2 में वित्तीय उन्नयन दिया जा चुका है।

अनीता बालाकृष्णा
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशा.-I/पदो./एफ.-58/2014-15/57—प्रधान महालेखाकार ने सहर्ष निम्नलिखित वरिष्ठ लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक/डी.ई.ओ. को रु. 4,800/- के ग्रेड वेतन सहित रु. 9,300—34,800/- के वेतन बैंड-2 के स्थानापन्न सहायक, लेखापरीक्षा

अधिकारी (सिविल) के रूप में पदोन्नत किया है, जो कि उनके नाम के आगे दी हुई तिथि से प्रभावी होगा।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री)	का.आदेश सं./दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	वासु मित्रा के	96/05.11.2014	05.11.2014
2.	सेश पवन कुमार के	96/05.11.2014	05.11.2014
3.	सईदाराव नेल्लूरी	96/05.11.2014	05.11.2014
4.	बिक्रमसेन नायक	96/05.11.2014	10.11.2014
5.	सिकेंद्र कुमार	96/05.11.2014	07.11.2014
6.	उमामहेश्वर राव पी	96/05.11.2014	05.11.2014
7.	शोभा कांत सिंह	96/05.11.2014	05.11.2014
8.	बलराम रॉय	96/05.11.2014	05.11.2014
9.	लखन सिंह मीना	96/05.11.2014	05.11.2014

क्रम सं. 1 से 2 के कर्मचारी, वेतन के पुनः निर्धारण के योग्य नहीं हैं। एम.ए.सी.पी. योजना के तहत उन्हें पहले ही रु. 4,600/- के ग्रेड वेतन सहित रु. 9,300—34,800/- के पे बैंड-2 में वित्तीय उन्नयन दिया जा चुका है। किन्तु ग्रेड पे का जो अन्तर है, वह डी.ओ.पी.टी. के का.ज्ञा.सं. 35034/3/2008/स्था(डी) दिनांक 19.05.2010 के तहत दिया जाएगा।

क्रम सं. 3 से 9 के कर्मचारियों को समय-समय पर समशोधित भारत सरकार के दिनांक 26.09.1981 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ 1/80-स्था.(पी.1) और दिनांक 08.02.1983 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ 13/26/82-स्था.(पी.1) के तहत अपने प्रोन्नति के दिन से एक महीने के अंदर वेतन निर्धारण का विकल्प देना होगा।

उपरोक्त प्रोन्नति आदेश उनके वरिष्ठों के दावों, यदि कोई हो, के प्रति पक्षपात से रहित है तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत के सर्वोच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण इत्यादि में लंबित रिट याचिकाओं, यदि कोई हो, के परिणाम के अधीन है।

अनीता बालाकृष्णा
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशा.-I/पदो./8-132/एफ. 59/2014-15/58—प्रधान महालेखाकार (सा.क्षे.ले.प.), आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, हैदराबाद निम्नलिखित व. लेखापरीक्षा अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गयी तिथि के प्रभाव से सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/कु.)	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	जैकॉब उदया कुमार यू	30.09.2014 अपराह्न
2.	नागेस्वरा राव वी	31.10.2014 अपराह्न

अनीता बालाकृष्णा
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

रक्षा मंत्रालय (वित्त)
(रक्षा लेखा विभाग)
कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक

दिल्ली छावनी-110010, दिनांक 10 नवम्बर 2014

सं. प्रशा.-I/1171/र.ले.प्र.नि./2013-14—राष्ट्रपति, प्रोन्नति पर निम्नलिखित अधिकारी को ठीक नीचे का नियम (एनबीआर) के अंतर्गत भारतीय रक्षा लेखा सेवा के रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक तथा समकक्ष पदों पर वेतनमान 67,000—(वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%)—79,000/- रुपए (22,400—525—24,500/- रुपए का पूर्व संशोधित वेतनमान) में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से तथा आगामी आदेश पर्यन्त सहर्ष प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान करते हैं :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक तथा समकक्ष पदों पर नियुक्ति की तारीख
1.	श्रीमती अनुराधा प्रसाद	01.07.2014 (प्रोफार्मा पदोन्नति)

प्रवीण कुमार राय
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा.)

सं. प्रशा.-I/1172/एसएजी/2014-15—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को ठीक नीचे का नियम (एनबीआर) के अंतर्गत भारतीय रक्षा लेखा सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड वेतन रुपए बैंड-4 37,400—67,000/- + ग्रेड वेतन 10,000/- रुपए (18,400—500—22,400/- रुपए का पूर्व संशोधित वेतनमान) में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से तथा आगामी आदेश पर्यन्त सहर्ष प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान करते हैं :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री मिहिर कुमार	23.09.2014 (प्रोफार्मा पदोन्नति)

प्रवीण कुमार राय
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा.)

सं. प्रशा.-I/1174/जे.ए.जी./2014-15—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय रक्षा लेखा सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड वेतन बैंड-3 15,600—39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 7,600/- रुपए (12,000—375—16,500/- रुपए का पूर्व संशोधित वेतनमान) में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से तथा आगामी आदेश पर्यन्त सहर्ष प्रोन्नति प्रदान करते हैं :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री लक्ष्मण लिखर	19.08.2014 (पूर्वाह्न)
2.	श्री नबरुन धर	19.08.2014 (अपराह्न)
3.	श्री संगीत	20.08.2014 (अपराह्न)
4.	श्री बलराम कुमार	19.08.2014
5.	श्री एम. एस. सारवनन	26.08.2014 (पूर्वाह्न)

प्रवीण कुमार राय
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा.)

दिनांक 12 नवम्बर 2014

सं. प्रशा.-I/1175/VII/र.ले.म.नि.—राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारी श्री अरविन्द कौशल को 01 नवम्बर, 2014 (अपराह्न) से तथा आगामी आदेश पर्यन्त रुपए 80,000/- (नियत) के वेतनमान में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

प्रवीण कुमार राय
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा.)

दिनांक 17 नवम्बर 2014

सं. प्रशा.-I/1172/एसएजी/2014-15—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय रक्षा लेखा सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड वेतन बैंड-4 37,400—67,000/- रुपए + ग्रेड वेतन 10,000/- रुपए (18,400—500—22,400/- रुपए का पूर्व संशोधित वेतनमान) में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से तथा आगामी आदेश पर्यन्त सहर्ष प्रोन्नति प्रदान करते हैं :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री अजय कुमार प्रद्योत	13.10.2014 (पूर्वाह्न)
2.	श्री कँवलदीप सिंह	07.11.2014 (पूर्वाह्न)
3.	श्री अमित प्रसाद	26.09.2014 (पूर्वाह्न)
4.	श्रीमती ऋचा मिश्र	23.09.2014 (अपराह्न)
5.	श्री के बालकृष्ण	25.09.2014 (पूर्वाह्न)

प्रवीण कुमार राय
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा.)

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय
(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 31 अक्टूबर 2014

सं. 5/1/2014-सी.पी.आई.—सितम्बर, 2014 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 253 (दो सौ तिरपन) अंकों के स्तर पर स्थिर रहा।

एस. एस. नेगी
निदेशक

खान मंत्रालय
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-16, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

सं. ए-35018/डीडीजी(पीएवंए)/2014-15/19सी—राष्ट्रपति जी, श्रीमती जयती घोष को उपमहानिदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पद पर रु. 10,000/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-4 (रु. 37,400—67,000/-) में प्रभावी 10.10.2014 (पूर्वाह्न) से पाँच वर्षों के लिए या आगामी आदेशों तक, जो पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं।

सी. मुरलीधरण
निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुंबई-400085, दिनांक 17 नवम्बर 2014

सं. पीडी/93/अधि/स्थापना/I&II/ओपीए/149970—निम्नलिखित तालिका में कॉलम-2 पर दर्शाए गए अधिकारियों द्वारा नामों के सामने कॉलम-3 पर दर्शाए गए पद, कॉलम-4 पर दर्शाई गई तारीखों को, कॉलम-5 पर दर्शाई गई घटना के आधार पर अधिकारियों द्वारा धारित पदों का कार्यभार त्याग किया गया है।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार त्यागने का	पदत्याग करने की तारीख	घटना
1.	डॉ. एस. के. आपटे	विशिष्ट वैज्ञानिक	31.10.2014 (अप.)	सेवा अवधि में दो वर्ष विस्तार के बाद सेवानिवृत्ति
2.	डॉ. एन. कृष्णमूर्ति	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	31.10.2014 (अप.)	अधिवर्षिता
3.	डॉ. ए. के. शर्मा	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	31.10.2014 (अप.)	सेवा अवधि में दो वर्ष विस्तार के बाद सेवानिवृत्ति
4.	डॉ. (श्रीमती) हेमलता पदमनाभन	वै. अ/ई	31.10.2014 (अप.)	अधिवर्षिता
5.	डॉ. आर. सी. हुबली	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	31.10.2014 (अप.)	अधिवर्षिता
6.	डॉ. (श्रीमती) श्रीदेवी बी.	वै. अ/जी	31.10.2014 (अप.)	अधिवर्षिता
7.	डॉ. मनमोहन सिंह भाटिया	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	31.10.2014 (अप.)	अधिवर्षिता
8.	श्री इस्माईल अब्दुल सर्जेखान	वै. अ/ई	31.10.2014 (अप.)	अधिवर्षिता
9.	श्री राम किशन	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	31.10.2014 (अप.)	अधिवर्षिता

हस्ता./—अपठनीय
नियंत्रक

मुंबई-400085, दिनांक 14 नवम्बर 2014

सं. पीडी/7(5)/2014/भर्ती-IV/(एसओ/डी)/ईटीजी/13391—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के श्री बिजु एम. जी., वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'सी' पे बैंड रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'डी' के पद पर पे बैंड रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केंद्र में 01 जुलाई, 2013 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

एम. वी. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग
(भारी पानी बोर्ड)

मुम्बई-400094, दिनांक 14 नवम्बर 2014

सं. भापाबो/भर्ती/1(36)-तूतीकोरिन/2014/5367—मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्रीमती एस. रोजलीन पी. रायर, आशुलिपिक ग्रेड-I (पीबी-2 रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,200/-), भारी पानी संयंत्र (तूतीकोरिन) को दिनांक 26.11.2013 के (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,600/- में उसी संयंत्र में निजी सचिव (गैर-सचिवालयीन) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी—III

सं. भापाबो/भर्ती/1(10)-तूतीकोरिन/2014/5401—भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, श्री टी. वी. आर. बापन्ना शास्त्री, सहायक (पीबी-2 रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,600/-), एन.एफ.सी., हैदराबाद को दिनांक 21.08.2014 के (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन में श्रम एवं कल्याण अधिकारी पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी—III

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

सं. आरआरकेट/प्रशा/भर्ती-738/ओसीईएस-13/1293—भारत के राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षणार्थी वैज्ञानिक अधिकारियों को दिनांक 01.08.2014 की पूर्वाह्न से वैज्ञानिक अधिकारी 'सी' के पद पर वेतन बैंड-3 : रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में स्थानापन्न रूप से आगामी आदेशों तक नियुक्त किया जाता है :—

क्रम सं.	संसंसं.	नाम
1.	2036	श्री विकास कुमार सिंह
2.	2037	कु. गीतान्जली
3.	2038	कु. अमृता श्रीवास्तव
4.	2039	श्री पवन कुमार गौतम
5.	2040	श्री देशमुख प्रतिक प्रतापराव

बी. के. जेना
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग
(नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र)

हैदराबाद-500062, दिनांक 17 नवम्बर 2014

सं. नाईस/काप्रभ.I/03/50 (एa)/2324—मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन श्री उन्मेश एस. चास्कर, जनसंपर्क सहायक को रु. 4,800/-ds के ग्रेड पे सहित रु. 9,300—34,800/- वेतन बैंड-2 में दिनांक 03.11.2014 के (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक अस्थायी हैसियत में स्थानापन्न सहायक जनसंपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. जया कृष्णा
प्रशासन अधिकारी—III

कम्पनी कार्य मंत्रालय
कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 14 नवम्बर 2014

सं. क्रं/दिल्ली/अगस्त 14/560(5)/एफटीई-2011/8906—कम्पनी अधिनियम, 1956 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्न कम्पनियों के नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित कर दी गई हैं :—

Sl. No.	CIN	COMPANY_NAME
1.	U65992HR1993PTC032144	उनिटेक्स चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	U65992HR1998PTC033862	केशगढ़ साहिब चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3.	U74899HR2005PLC035812	न्यू वर्ल्ड सिंथेटिक लिमिटेड
4.	U74899DL1980PTC010379	ओडिसी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
5.	U74899DL1985PTC020494	मास्क ओवरसीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
6.	U74899DL1986PTC026153	जसबीर सिंह एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
7.	U74899DL1987PTC029953	क्वात्रा कोठारी प्राइवेट लिमिटेड
8.	U74899DL1989PTC034558	ब्रैनवावे कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
9.	U74899DL1990PTC039901	क्लासिक क्लोसुरेस प्राइवेट लिमिटेड
10.	U51909DL1994PTC060101	नेप्को एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
11.	U74899DL1994PTC061058	नूतन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
12.	U74899DL1995PTC064947	पी आर लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड
13.	U74899DL1995PTC065418	शरवण एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
14.	U74899DL1995PTC072352	अग्गरवाल प्लास्टोचेम प्राइवेट लिमिटेड
15.	U74899DL1995PTC073665	लेविटे फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
16.	U22122DL1996PTC079606	टास्क पॉइंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
17.	U51909DL1997PTC089915	बोन्जौर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
18.	U70109DL1997PTC090790	वल्कन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
19.	U25190DL1997PTC091342	प्रहार लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
20.	U72900DL2000PTC107766	कौन्सिलनेट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
21.	U15332DL2002PTC114515	ऑर्नाटे रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
22.	U63090DL2002PTC114853	साँची पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड
23.	U63040DL2002PTC115779	मैचलेस गिलास एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
24.	U28933DL2003PTC119949	संविक् मेटाफिन प्राइवेट लिमिटेड
25.	U72900DL2003PTC121003	अपत इन्फोस्यूस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड
26.	U74140DL2003PTC121504	वी एन ज़ मैनेजमेंट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
27.	U72900DL2003PTC123162	लक्षय कललसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
28.	U72900DL2003PTC123495	कंवरगे सोल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
29.	U51909DL2004PTC126062	हार्ड रॉक एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
30.	U70101DL2004PTC126597	आस्क बिल्डकन प्राइवेट लिमिटेड
31.	U51909DL2004PTC127851	मनसा हंग यूए इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
32.	U27106DL2004PTC129281	नरवाना स्टील उद्योग प्राइवेट लिमिटेड
33.	U25202DL2004PTC129325	शिव शक्ति फुट केयर प्राइवेट लिमिटेड

Sl. No.	CIN	COMPANY_NAME
34.	U18101DL2004PTC129479	डी पी गारमेट्स प्राइवेट लिमिटेड
35.	U18101DL2005PTC136924	जय जगदम्बा गारमेट्स प्राइवेट लिमिटेड
36.	U51909DL2005PTC137543	जयलाल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
37.	U51909DL2005PTC138421	अशोदीप एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
38.	U74899DL2005PTC139498	करोनेट इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
39.	U63023DL2005PTC140106	ग्रेटर नॉएडा इंटीग्रेटेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड (100% एफ .सब.को)
40.	U27107DL2005PTC141886	मैक्सिम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
41.	U00000DL2001PTC110023	शिमग ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
42.	U19121DL2005PTC133340	एस्सेल बैग्स प्राइवेट लिमिटेड
43.	U17101DL2005PTC144237	विष्णु इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
44.	U70109DL2006PTC149786	बारीक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
45.	U70109DL2006PTC152165	बी .वी . बिल्डकन प्राइवेट लिमिटेड
46.	U74140DL2006PTC147042	आर स आर इन्शुरन्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड .
47.	U64201DL2006PTC150603	जी पी अस टेलीकम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
48.	U70109DL2006PTC151535	एचीवर बुइलदमार्ट प्राइवेट लिमिटेड .
49.	U31108DL2006PTC154774	सत्यम होम एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड
50.	U74996DL2006PTC154833	श्री राज सैनितेशन प्राइवेट लिमिटेड
51.	U92412DL2006PTC156678	तफकन एक्सपो मीडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
52.	U72300DL2007PTC157834	ओसियन टेचनोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
53.	U85191DL2007PTC160717	केरलीय आयुर्वेदा पंचकर्मा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
54.	U45200DL2007PTC158137	ए आर एन इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
55.	U45200DL2007PTC160650	शामा इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
56.	U17219DL2007PTC166382	विकट्री तचफाब प्राइवेट लिमिटेड
57.	U24233DL2007PTC163111	टेचनोवातोर्स इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
58.	U74140DL2007PTC164738	डी एन वी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
59.	U20296DL2007PTC163630	इंस्पायर आर्ट प्राइवेट लिमिटेड
60.	U72300DL2007PTC169132	प्रॉफिसिएंट इ -सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
61.	U29268DL2007PTC171274	ए टू जए सोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड
62.	U25200DL2007PTC171816	एम २ एम पोलीपक प्राइवेट लिमिटेड
63.	U65190DL2007PLC169878	जेनेटिक फिनवेस्ट लिमिटेड
64.	U17291DL2007PTC170312	तमन्ना गारमेट्स प्राइवेट लिमिटेड
65.	U27310DL2007PTC170309	मानव बब्बर स्टील प्राइवेट लिमिटेड
66.	U70109DL2007PTC171792	वेसेलका रियल टोरस प्राइवेट लिमिटेड
67.	U45400DL2007PTC171789	वेसेलका डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
68.	U51909DL2008PTC174808	क्राफ्ट इंडिया होम एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड
69.	U72900HR2008PTC037634	इन्नोवेट्रिक्स वेब सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
70.	U74120DL2008PTC174395	कैप्टिव कॉन्सप्ट्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
71.	U55101DL2008PTC174067	यंग सेन एजुकेशनल एंड हॉस्पिटलिटीएस प्राइवेट लिमिटेड
72.	U66000DL2008PTC175333	वैल्यू केयर इन्शुरन्स ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड
73.	U74120DL2008PTC175639	हर्षा टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड

Sl. No.	CIN	COMPANY_NAME
74.	U74120DL2008PTC175519	नेक्सस रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड
75.	U74120DL2008PTC176237	श्वेता इलेक्ट्रिक मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
76.	U51109HR2008PTC037825	ग्रेस फिनिशिंग मैटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड
77.	U62100HR2008PTC037873	ए आर सी वन एयर चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
78.	U45208DL2008PTC179281	सुखशांति कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
79.	U63040DL2008PTC184097	सुशांत ट्रेवल एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
80.	U74140DL2008PTC183986	अदा इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
81.	U80301HR2008PTC038513	यंग अचीवर्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड .
82.	U51109DL2008PTC184369	एक्सेस टेलेलिक प्राइवेट लिमिटेड
83.	U72200DL2009PTC187678	माय बिग मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
84.	U80904DL2009PTC189754	और एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
85.	U72900HR2009PTC039029	जय हनुमान इंफोटेच प्राइवेट लिमिटेड
86.	U45204HR2009PLC039332	ओके प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
87.	U72300DL2009PTC191130	जी ल वी वेबडिजिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
88.	U67190DL2009PTC195384	ट्रान्ज़ कैप सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
89.	U31900DL2009PTC194412	आरएन केबल्स प्राइवेट लिमिटेड
90.	U72300DL2009PTC194102	मैवेन इ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
91.	U45200HR2009PTC039379	कमल एंगगक्यों प्राइवेट लिमिटेड
92.	U74900DL2009PTC196045	समस्त फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
93.	U74140DL2010PTC200889	क्वाड्रोप्रो कॉसल टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड
94.	U63000DL2010PLC201603	पीक ट्रेवल्स लिमिटेड .
95.	U72200HR2010PTC040872	वी ए टेचनोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
96.	U74300DL2010PTC207536	प्रोफोकस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
97.	U51909DL2010PTC207926	बीगफ्रेश फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड
98.	U45204DL2010PTC208065	डगर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
99.	U41000DL2010PTC209727	अटलांटिस औरोरा वाटर INDIA प्राइवेट लिमिटेड
100.	U20211DL2010PTC211067	गार्नेट पलीवुड्स प्राइवेट लिमिटेड
101.	U72900DL2010PTC211813	सईद क्सबोर्डर इ सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
102.	U74999DL2011PTC212235	अस के एम सिस्टम सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
103.	U51909DL2011PTC213871	मैक्सवेल चम्पक प्राइवेट लिमिटेड
104.	U45400HR2011PTC042020	वी के जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
105.	U74999DL2011PTC212884	एस आर देज़ीगनटेक एक्सहिबिशन प्राइवेट लिमिटेड
106.	U24100DL2011PTC215696	प्रार्थना अगरबत्ती प्राइवेट लिमिटेड
107.	U74999DL2011PTC214238	कॉम्पैक्ट कित्चेंवारेस प्राइवेट लिमिटेड
108.	U63040DL2011PTC214761	लुक एन बुक प्राइवेट लिमिटेड
109.	U70200DL2011PTC220528	धनलक्ष्मी प्रकाश इंफ्राकं प्राइवेट लिमिटेड
110.	U52100DL2011PTC216914	वेंका ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
111.	U74999DL2011PTC216581	इ-स्पोर्ट्स सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
112.	U74140DL2011PTC219091	एम वी जे ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
113.	U28113HR2011PTC043343	भावना फेरस कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

Sl. No.	CIN	COMPANY_NAME
114.	U92400HR2011PTC043506	एस एम मल्टी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
115.	U14290DL2011PTC224254	एअर्थ स्टोन एंड टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
116.	U72200DL2011PTC224964	विप्रा आईटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
117.	U70100DL2011PTC225400	विजय जय कृष्ण इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
118.	U71210DL2011PTC227219	अपको कंपोनेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
119.	U93000DL2011PTC227341	जेनी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
120.	U65992HR2012PTC044865	होम केयर चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
121.	U93000HR2012PTC045099	मेटीस डेंटल प्राइवेट लिमिटेड
122.	U74140DL2012PTC232299	इरफाल विनियम डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड
123.	U80301HR2012PTC045382	कुइक्फाई नॉलेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
124.	U72501DL2012PTC235354	डी पी ए मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
125.	U51909DL2012PTC238486	फ्लुप्लिते इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
126.	U85100DL2012PTC238038	वीनस ली हेल्थ एंड फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड
127.	U52600DL2012PTC236849	अगगरवाल लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड
128.	U45400DL2012PTC242547	कैमिया रेजीडेंसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
129.	U70100DL2012PTC239751	पिनाकल अप्फिलिटस प्राइवेट लिमिटेड
130.	U51900DL2012PTC241141	श्री मैटेरियल्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
131.	U51909DL2012PTC239609	मशोर इ-शॉप प्राइवेट लिमिटेड
132.	U70109DL2012PTC244145	पृथ्वीलिंग इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
133.	U74140HR2012PTC047108	क्सेरिओ कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
134.	U21000DL2012PTC243211	सिंडिकेट ट्रेडक्स प्राइवेट लिमिटेड
135.	U74140DL2012FTC246062	वत्स नाउ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
136.	U80903DL2012PTC244736	वैन इंस्टीट्यूशनल अकादमी प्राइवेट लिमिटेड
137.	U92490DL2012PTC244602	डिसीप्ले एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
138.	U31200DL2012PTC245828	एटलांटा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
139.	U63000DL2012PTC246090	नबील टूर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
140.	U85100DL2013PTC248479	अल्फा कैसर केयर प्राइवेट लिमिटेड
141.	U51101DL2013PTC248076	अलमोंडज इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
142.	U74900DL2013PTC249279	टैलेंट इन्फिनिटस प्राइवेट लिमिटेड
143.	U93090DL2013PTC252731	पिक्साडिल्य एक्सिम सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
144.	U51900DL2013PTC254171	ददइंफ़्टर्स ओफ्थाल्मिक्स प्राइवेट लिमिटेड
145.	U45200DL2013PTC255186	देओल सिटी बुइलडेज प्राइवेट लिमिटेड
146.	U93030DL2013PTC262511	एम पी द चॉकलेट विला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
147.	U15490DL2014PTC263430	आर डी एम एगो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
148.	U51900DL2014PTC265009	द मालगुडी ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
149.	U52390DL2014PTC264516	टुडे शोपिंग्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

प्रेम लाल भंजूराम मलिक
उप कम्पनी पंजीयक
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 19 नवम्बर 2014

सं. करं/दिल्ली/9-3314/560(5)/एफटीई-2011/8947—कम्पनी अधिनियम, 1956 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्न कम्पनियों के नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :—

SL. No	CIN	COMPANY NAME
1	U17111DL2000PLC108338	बनारस डीसाइन लिमिटेड
2	U74140DL2004PTC130636	फिनोबले अडवाएसर्स प्राइवेट लिमिटेड
3	U93000DL2010PTC211422	तिरुमाला मैनपावर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
4	U72900DL2000PTC105236	मेवार इन्फोलाइन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
5	U80211DL2011PTC215752	एम आई एस अकैडमी प्राइवेट लिमिटेड
6	U74899DL1989PTC035491	चिराग एयरकंडीशनिंग प्राइवेट लिमिटेड
7	U74900HR2013PTC050142	याशना लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड
8	U92490DL2010PTC201336	मुंबई होर्स रेसिंग प्राइवेट लिमिटेड
9	U31908HR2010PTC040393	रानिओ इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
10	U63010DL2010PTC203870	विक्टोरिया फूड्स कोल्डस्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
11	U85100DL2014PTC266117	यूनिवर्सल प्योर कॉसियसनेस रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
12	U67190DL2007PTC161308	स्काट कंस्यूमर गुड्स सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
13	U72300HR2007PLC036770	क्वांटम एम्बेडेड सिस्टम्स लिमिटेड
14	U74900DL2009PTC189498	जलेबी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड
15	U74899DL2000PTC105816	डी एन वी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
16	U74140DL2007PTC169726	खोज कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
17	U51395DL2013PTC247103	एनेरजेटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
18	U45400HR2012PTC047731	ए पी साहाना प्रमोटर्स & डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
19	U51909HR2006PTC036480	गोगना इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
20	U55101DL2006PTC144395	ट्रिनिटी डाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड
21	U70101DL1999PTC102036	वी एम वी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
22	U00000DL2001PTC109987	वी आर ए इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
23	U45300DL2008PTC177028	क्रूती डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
24	U51109DL2008PTC182978	प्राक्सीस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
25	U45201DL2005PTC136231	असमीटेक कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
26	U80903DL2010PTC205071	करियरब्रिक्स लर्निंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
27	U74900DL2008PTC178986	कानू पेरिफेरल्स प्राइवेट लिमिटेड
28	U36103DL2013PTC248127	रेवा हैंडीक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U74120DL2008PTC181010	न्यू एरा ट्रेडक्सपो प्राइवेट लिमिटेड
30	U72900DL2012PTC238424	हायजीआ डिजिटल कम्युनिकेशन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
31	U72300DL2008PTC177505	गालअंट कोम्प्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड
32	U74996DL2006PTC149928	सुतलज इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
33	U74994DL2007PTC161531	रश्मि डीसाइनस प्राइवेट लिमिटेड
34	U85110DL2006PTC146486	आस्था हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड

SL. No	CIN	COMPANY NAME
35	U29248DL2006PLC154702	टेम्पोबर इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड
36	U45400DL2010PTC211490	पम्पकिन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
37	U70109DL1997PTC089026	विद्या कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड
38	U74999DL2009PTC187557	वाधवानी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
39	U51109DL2010PTC198713	ग्लो एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
40	U31109DL2007PTC170153	वाई .एन. मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
41	U45400DL2010PTC211104	अमित डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
42	U92490DL2013PTC249844	मिर्ची स्टुडिओस प्राइवेट लिमिटेड
43	U74140DL2011PTC221817	एनहान्स रिटेल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
44	U74300DL2011PTC218059	एकेड्स आउटडोर एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
45	U29220DL2009PTC194571	सुमीत कटिंग एज प्राइवेट लिमिटेड
46	U40107DL2008PTC180712	आसन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
47	U72200DL2012PTC231444	नेटवेज सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
48	U63040DL2008FTC183105	एआरपी ट्रेवल सोल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
49	U70100DL2012PTC238851	आर्यपुत्रा डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
50	U24232DL2011PTC221123	एस्ट्रो लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड
51	U62100DL2012PTC239578	शील एविएशन प्राइवेट लिमिटेड
52	U51909DL2012PTC245372	सुदन फैशन प्राइवेट लिमिटेड
53	U73100HR2010PTC041397	नानोवैट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
54	U74900DL2013PTC253080	टेक्स इंडिया कनेक्ट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
55	U18204DL2007PTC157833	अमरक्रिश गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
56	U51909DL2010PTC201069	क्लॉउट ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड
57	U72200DL2011PTC226420	एस्टीम इन्फो सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
58	U55101HR2013PTC049121	डी. एस. फार्च्यून हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
59	U80301HR2012PTC045381	सापिएन्स एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड
60	U74300DL2012PTC241344	एच एम अडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
61	U93000DL2013PTC250113	वाइट लीफ कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
62	U31500DL2010PTC204470	आर एन लाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
63	U85100DL2011PTC218738	ऐशा हर्बल लाइफ साइंसेज लिमिटेड
64	U45400DL2008PTC173339	वालनीलू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
65	U70109DL2010PTC205118	हीथ बिल्डिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
66	U74899DL1993PTC052742	मेखला ट्रेडर्स एंड फाइनेंसर्स प्राइवेट लिमिटेड
67	U63040DL2013PTC252827	शुभयात्रा डेस्टिनेशन प्राइवेट लिमिटेड
68	U40106DL2012PTC234260	जागृति सोलर प्राइवेट लिमिटेड
69	U18204DL2007PTC167827	गोल्डन एज अप्परेल्स प्राइवेट लिमिटेड
70	U40300HR2013PTC049742	सनबोर्न एनर्जी पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड
71	U51393DL2008PTC185563	इस एन इस शो रैक्स प्राइवेट लिमिटेड
72	U32309DL1996PTC082742	सारा इलेक्ट्रो अकॉस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
73	U33110DL2008PTC178679	राघव सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड

SL. No	CIN	COMPANY NAME
74	U27109DL2008PTC178874	आस्त ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
75	U72200DL1995PTC074216	नुपुर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
76	U70100DL2010PTC204923	के एम इस इस कॉरपोरेट एस्टेट एजेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
77	U01403DL2007PTC165458	जयपुर गोल्डन एगो-प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
78	U74899DL1989PTC038670	जी. डी. टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड
79	U45400DL2007PTC163472	लेकसाइड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
80	U74999DL2010PTC201176	जीओ कूलिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
81	U74999DL2011PTC213910	लाइ टू मी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
82	U17226DL2001PLC158413	वृन्दावन ओवरसीज़ लिमिटेड
83	U72900HR2010PTC040868	बर्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
84	U80900DL2010PTC211999	आर. के. इंस्टिट्यूट फॉर एजुकेशन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
85	U24239DL2003PTC120703	वैद्य नंदराम गीगराज चामरिया आयुर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड
86	U72200DL2013PTC261038	सवाईपर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
87	U65992DL2002PTC116252	पिपाला चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
88	U93000HR2014PTC051832	साल्वेंटउर्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड
89	U31300DL2011PTC228836	पयमेन केबल्स प्राइवेट लिमिटेड
90	U51109DL2008PTC184250	एज ट्रेड्सर्व प्राइवेट लिमिटेड
91	U72300DL2008PTC181243	आनंद ह्यूमन सप्लाय प्राइवेट लिमिटेड
92	U74899DL1995PTC068789	शुद्ध प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
93	U72200DL2005PTC137200	जी इ पी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
94	U80302DL2011PTC221207	सेरेसिंथ एड्सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
95	U72200DL2005PTC138569	लाइफ सॉफ्ट आईटी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
96	U20296DL2008PTC184943	निकी राहुल क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
97	U74999DL2011PTC212861	पाम स्कूएयर मैनेजमेंट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
98	U70101DL1997PTC090603	हरे कृष्णा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
99	U01400DL2010PTC204320	कैलिबर फार्म सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
100	U51109DL2008PTC179411	कोलंबिया इमपेक्स इन्टिग्रेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
101	U74899DL1989PTC036504	पजेरो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
102	U22110DL2012PTC229595	पब्लिक एशिया प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड
103	U99999DL1991PTC046536	नीरोटेक इंजीनियरिंग मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड
104	U74900DL2010PTC200909	अनराइज बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
105	U85100DL2011PTC218157	न्यू ऐज हेल्थ-केयर स्पेशलिस्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
106	U01500DL2012PLC237552	बंधन एगोकौन लिमिटेड
107	U85100DL2010PTC204374	अनंदा हेल्थ एंड योगा प्राइवेट लिमिटेड
108	U55101DL1997PTC085948	फ्रेंडली अबोइस प्राइवेट लिमिटेड
109	U51909DL2014PTC268203	जसमान इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
110	U63040DL2010PTC205964	पगडंडी सस्टेनेबल टूरिस्म प्राइवेट लिमिटेड
111	U72900DL2013PTC253952	डेअर एक्सेलरेटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
112	U45200DL2007PTC171836	एन जी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड

SL. No	CIN	COMPANY NAME
113	U74899DL1970PTC005399	एमएक्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
114	U72900DL2005PTC136842	डीवाईन इन्फो ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड
115	U80302DL2011PTC219626	क्लाइंब अप एजुकेशन सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
116	U17200DL2014PTC266426	रिविएरा माईसन प्राइवेट लिमिटेड
117	U74900DL2009PTC189872	गोल्ड बर्ड अडवाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड
118	U74999DL2009PTC188409	इन इन सिक्योरिटी सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
119	U45201DL2005PTC136347	इन इन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड
120	U18109HR2010PTC040235	एपमैक्स क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड
121	U63000DL2011PTC213945	सन गो लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
122	U74140DL2008PTC182104	एक्सिस मैनपावर प्राइवेट लिमिटेड
123	U34102DL1999PTC098732	दो भाई ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
124	U74950DL2002PTC115700	अलाइड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
125	U85191DL2012PTC235424	इस इस अयूरओहर्बल प्राइवेट लिमिटेड
126	U25190DL2008PTC172558	रोहन टायर्स प्राइवेट लिमिटेड
127	U17121HR2007PTC037302	जे एच अपैरल प्राइवेट लिमिटेड
128	U74140DL2008PTC182199	कैब्रिज पोलिसी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
129	U28910DL2010PTC211750	माँ बाला सुंदरी रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
130	U21099DL1970PTC005468	गोल्डन पेपर उद्योग प्राइवेट लिमिटेड
131	U22300DL2008PTC172797	प्राइमटाइम मल्टीमीडिया सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
132	U51311DL2003PTC123247	आर आर जे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
133	U74140DL2012PTC234532	कोरपो ट्रेड ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
134	U74899DL1992PTC049268	कीरत एक्स - सर्विसमेन इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
135	U51909DL2001PTC112858	ओवरड्राइव ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
136	U80904DL2007PTC163674	ईजीवेज़ एकेडेमी प्राइवेट लिमिटेड
137	U45203DL2001PTC112974	कुआलीकौन प्राइवेट लिमिटेड
138	U74140DL2010PTC200849	ईजीवेज़ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
139	U93000DL2011PTC221267	ओकीपे बिलिंग सर्विसेज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
140	U74140DL2010PTC204733	विट्स कॉरपोरेट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
141	U64204DL2007PTC162664	शैल्स कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
142	U92100DL2010PTC204739	विट्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
143	U80302DL2006PTC146690	गौरव मैनेजमेंट स्टडीज़ प्राइवेट लिमिटेड
144	U15543DL1998PTC092419	ब्लू लाइट एक्वा प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
145	U28991DL2004PTC130396	टच मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
146	U21029DL2006PTC151299	साकुरा पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
147	U74899DL1995PLC071315	नेस्टर बेसिक ड्रग्स लिमिटेड
148	U74899DL1991PTC043312	स्कैन बिज़नेस सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
149	U80904HR2011PTC042824	सेवियर एजुकेशन एकेडेमी प्राइवेट लिमिटेड
150	U72300DL2009PTC188339	इस. आर. इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
151	U93000DL2012PTC236080	लोटस लुमिनरीज प्राइवेट लिमिटेड

SL. No	CIN	COMPANY NAME
152	U70109DL2006PTC155472	चौमुखा महादेव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
153	U45400DL2008PTC173083	क्राफ्टमार्ट एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
154	U74899DL1992PLC050423	इंडिया कोटवेल लिमिटेड
155	U72900DL2006PTC150131	फिनटिन बी पी ओ सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
156	U74899DL1993PTC055442	शीतुल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
157	U72200DL2000PTC103773	सनस्टार नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
158	U74899DL1985PTC022766	चारु फिनांशियल एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
159	U55101DL2012PTC237742	ए के सी एसेंशिअल्स प्राइवेट लिमिटेड
160	U74900HR2013PTC048293	सोन्नेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
161	U67120HR2012PTC047994	इंफिनिटी एल्गो इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
162	U32901DL2005PTC136503	स्पेक्टैक्यूलर डिस्प्ले सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
163	U74900DL2012PTC237863	ए के सी हेलिंग हैड्स प्राइवेट लिमिटेड
164	U80301DL2012PTC236875	ए के सी इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड
165	U22190DL2013PTC253563	साइबर मीडिया डेअर प्राइवेट लिमिटेड
166	U29113DL2012PLC245293	कैमटेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड
167	U63033DL2009PTC187696	लक्ज़री टूल्स एंड वेकेशनस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
168	U31909DL2003PTC120061	ग्रीन प्लेनेट एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
169	U63000DL2011PTC218248	एन सी आर टूरिज़म प्राइवेट लिमिटेड
170	U63040DL2008PTC174910	आई पी एस ऐ ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
171	U74140DL2010PTC206182	रमपास्क कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
172	U45400DL2007PTC163568	उर्षा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
173	U72901DL2006PTC148492	वी एस आर कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड
174	U80221DL2006PTC156553	फाइनमैन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
175	U25207DL1998PTC092760	लेजेंड हाउसवेअर्स प्राइवेट लिमिटेड
176	U21014DL2008PTC176664	श्री टी आर एम पैकेजिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
177	U74899DL2003PTC122128	सुनद्रम पोलीफैब प्राइवेट लिमिटेड
178	U45200DL2010PTC206766	एम वी प्रोपमार्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
179	U45204DL2011PTC218976	के पी एच बिल्डकौन प्राइवेट लिमिटेड
180	U70100DL2012PTC238854	आर्यपुत्र बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
181	U45400DL2012PTC230779	साई कृष्णा लैंड कंसॉलिडेटेड प्राइवेट लिमिटेड
182	U51909DL2011PTC228644	गेमीनेट ट्रेडिंग सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
183	U93000DL2013PTC256283	डी वाइ एड्स प्राइवेट लिमिटेड
184	U74140DL2013PTC261512	मैक क्रू सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
185	U51397DL2008PTC186171	न्यूगा बेस्ट हेल्थ केअर प्राइवेट लिमिटेड
186	U51226DL2012PTC229907	इंडेक्स इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
187	U51909DL2012PTC232939	दानाएज़ ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
188	U74140DL2011PTC224600	विक्टर फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
189	U18101DL2011PTC218061	ऐताशा क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड
190	U51909DL2012PTC229770	स्टार वॉर्ट इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड

SL. No	CIN	COMPANY NAME
191	U72900DL2004PTC130044	पर्व इन्फो सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
192	U21093DL2007PTC159639	मॉगोन पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
193	U74140DL2008PTC172450	अलोन्स कोरपोरेट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
194	U72200DL2011PTC221296	एक बूँद कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
195	U45201DL2005PTC133880	मारवॉर रियाल्टी प्राइवेट लिमिटेड
196	U41000DL2005PTC143455	पेनटा वॉटर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
197	U45200DL2007PTC158512	तपस्या बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
198	U80903HR2008PTC038609	एमीटैक्स एजुकेशन इंस्टिट्यूट प्राइवेट लिमिटेड
199	U51310DL2008PTC182786	आई डी अंडर गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
200	U36100DL2009PTC196727	पीरामिड प्रिंटपैक प्राइवेट लिमिटेड
201	U31909DL2005PTC139040	आत्मा टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड
202	U64200DL2012PTC243610	सीतेल टेलिसेर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
203	U70109DL2009PTC195273	एम जी एफ़ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
204	U70101DL2009PTC195270	एम जी एफ़ लैंड डेवलपमेंट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
205	U74900DL2009PTC195271	एम जी एफ़ पावर प्राइवेट लिमिटेड
206	U70101DL2009PTC195277	एम जी एफ़ प्राइम सिटी प्राइवेट लिमिटेड
207	U70109DL2009PTC195272	एम जी एफ़ प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
208	U55101DL2009PTC190004	वेस्टमैक्स होटल प्राइवेट लिमिटेड
209	U45205DL2009PTC190005	वेस्टमैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
210	U45400DL2007PTC165808	ओपुलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
211	U72200DL2005PTC134684	रंगोली इन्फोटेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड
212	U45400DL2007PTC165811	प्रागटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
213	U45400DL2007PTC165809	औगुरी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
214	U45400DL2007PTC165810	कॉफीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
215	U74899DL1995PTC067083	देशवाल ऑटोमेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
216	U51909DL2011PTC212247	आदि & तनीषा ट्रेडिंग & सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
217	U24231DL2003PTC120734	अल्टिमा स्पोर्ट्स नुट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड
218	U92490DL2012PTC236631	लेखी प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
219	U70101DL1997PTC090596	ग्रेट हरयाणा रोड लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
220	U70101HR2011PTC042256	आदिशी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
221	U72300DL2008PTC175867	एन सी आर इन्फो ओन वेब प्राइवेट लिमिटेड
222	U45400DL2010PTC211727	जी एस वाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
223	U00374DL2005PTC137811	दविंदर ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
224	U72300DL2006PTC155530	एम जी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
225	U70109DL2013PTC248828	फॉर्टेक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
226	U72200DL2002PTC114204	पाइन ग्रोव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
227	U52190DL2006PTC151219	पीतांबरा इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
228	U93000DL2009PTC195811	ब्लू बर्ड कोरपोरेट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
229	U63040DL2013PTC252827	शुभयात्रा डेस्टिनेशन प्राइवेट लिमिटेड

SL. No	CIN	COMPANY NAME
230	U74900HR2009PTC038898	ओरनामेन्टल हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड
231	U74140DL2010PTC198091	अश्व एलकोहल्स प्राइवेट लिमिटेड
232	U01400DL2014PTC265728	कोलंबस अगरीबीज प्राइवेट लिमिटेड
233	U80301DL2006PTC149954	एन एफ पी एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
234	U51311DL2001PTC113168	पी आर बी मेर्कअंडीज एंड इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
235	U93000DL1997PTC085722	एब्सोल्यूट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
236	U70102DL2011PTC226200	एसैशियन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
237	U74900DL2009PTC191630	अरनव सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
238	U80904DL2007PTC163349	साकार विद्या प्राइवेट लिमिटेड
239	U74999HR2011PTC043464	इन्तेल्लिअन प्रोफेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
240	U50102DL2014PTC264124	गाडी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
241	U45200DL2008PTC179193	कृष्णादेव प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
242	U21010DL2008PTC173613	आधार ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
243	U74900HR2008PTC038292	आकाश ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
244	U45400DL2011PTC215295	गुडविल प्रोपबिल्ड ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
245	U74140DL2009PTC190217	बाह बाह फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
246	U72501DL2000PTC107971	पी के एस इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
247	U74899DL2000PTC108876	सैनी प्रमोटर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
248	U51909DL2005PTC132637	सुलोचना एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

प्रेम लाल भंजूराम मलिक
उप कम्पनी पंजीयक
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले और कम्पनियों के संबंध में

जयपुर-302001, दिनांक 20 नवम्बर 2014

सं. कर/जयपुर/560(5)/1290—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्न कम्पनियों के नाम, कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :—

क्र.सं.	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
01	039196	इवितल हैल्थटेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
02	037489	मि. मेक्स कॉन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड
03	021169	अरिहन्त प्लॉट डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
04	037805	मोलासेज इण्डविजन प्राइवेट लिमिटेड
05	037661	मजेस्टी इण्डविजन प्राइवेट लिमिटेड
06	037795	मफिन इण्डसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
07	037577	श्री बाबा बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
08	035420	चेतन्या डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
09	040687	कृष्णा महिमा एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
10	035835	मास्कोट ऑटोफेब प्राइवेट लिमिटेड
11	030161	टाईनोक्स बायोजेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
12	011040	रेनबो रिक्रिशन लिमिटेड
13	029688	स्काईलाइन प्लानर्स एण्ड डिजाइन डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
14	028496	जेटफ्लाई एविशन अकादमी प्राइवेट लिमिटेड
15	020770	हाई स्काई गेम्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
16	037199	खोईवाल कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
17	034961	भिवाडी ल्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
18	042196	जीपीसी रियलइन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड
19	029698	वी4एस माइन्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
20	014900	हीना ग्रेनी मार्मो प्राईवेट लिमिटेड
21	042254	एसएसआर ट्रेड लिंक प्राईवेट लिमिटेड
22	043649	स्ट्रेटबिज बिजनेस सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
23	027642	फिल्मत्रा अकादमी ऑफ सिनेमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
24	042306	स्पीड क्लासेज प्राईवेट लिमिटेड
25	040582	अंगीरा इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड
26	043530	जेडीसीएम इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
27	039523	स्टारलिक साइबर सिक्यूरिटी प्राईवेट लिमिटेड
28	025786	श्रीपुरम एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
29	035822	श्रीनाथजी नेचुरल रिसोर्सेज प्राईवेट लिमिटेड
30	023977	थिंकर्स कन्सट्रक्शन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
31	032942	पेरामाउण्ट ट्रेनिंग अकादमी प्राईवेट लिमिटेड
32	042551	जे.आर. भण्डारी सन्स इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
33	026118	श्री कोडाना भैरवनाथ बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
34	011769	विलओ पावर लिमिटेड
35	019634	सनराइज बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड
36	032509	सिक्थोर डिजाइन्स ट्रेडविजन प्राईवेट लिमिटेड
37	041938	अनन्ता इन्फ्राइंजिनीयर्स प्राईवेट लिमिटेड
38	031148	मेस्कोट सुपरिनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
39	037108	सुखसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
40	039440	सेनगार ऑटोगियर्स प्राईवेट लिमिटेड
41	030115	नवगढ़ ज्योतीष केन्द्र प्राईवेट लिमिटेड
42	033170	रॉयल स्टार बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
43	025769	इनमेक्स लैण्ड काफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
44	030594	अमरी क्लीनिकल रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड
45	036121	मार्स एक्सट्रक्शनस प्राईवेट लिमिटेड
46	028951	रुकमणी रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
47	040931	कृष्णा कृपा एगोटेक प्राईवेट लिमिटेड
48	003473	सुपरियर स्टील फाउण्डरी प्राईवेट लिमिटेड
49	034836	साज स्काई हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
50	041458	शैलेन्द्र प्रोपकोन प्राईवेट लिमिटेड
51	037524	सत्यम आईटेक्नोलोजी सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
52	012111	डी.एस फ्रूट्स एण्ड वेजेटेबल्स प्राईवेट लिमिटेड
53	034461	डायमण्डड्रीम कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
54	036912	आयुष बिल्डमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
55	024155	झान्झरी ऑटोमोटिव्स प्राईवेट लिमिटेड
56	019014	सहोदर प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
57	033571	मध्य प्रदेश ट्रेल्स प्राईवेट लिमिटेड
58	033574	महाराष्ट्र ट्रेल्स प्राईवेट लिमिटेड
59	038897	विनायराज इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
60	018221	वी.बी. वूड आर्ट प्राईवेट लिमिटेड
61	025021	सिद्धि विनायक आर्ट प्राईवेट लिमिटेड
62	034240	रोमबस एडवर्टाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड

इमरान ए. सिद्दीकी

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार एवं सहायक शासकीय समापक

राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में

कोलकाता, दिनांक 17 नवम्बर 2014

सं. करं/प.बं./एफटीई/560/2014—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 38 कम्पनियों के नाम, आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

क्र. स.	सीएन.आई.	कम्पनी का नाम
1	U29200WB2007PTC116554	एन.एस. इंजीन्यरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
2	U17232WB1994PTC063950	हेमटेक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3	U74950WB2003PTC095963	बोस पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
4	U51909WB2012PTC188245	जे एम मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
5	U74140WB2012PTC181610	मौसूमी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
6	U93000WB2013PTC192259	माइंडसीक एचआर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
7	U51909WB2012PTC184658	सिद्धिदात्री डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
8	U72200WB2000PTC092489	एस बी एस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
9	U74900WB2012PTC188539	एआर एग्रीकेम प्राइवेट लिमिटेड
10	U72200WB2005PTC104700	ईस्टर्न टेली सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
11	U51909WB1994PTC062728	पूर्वा ट्रेकसीम प्राइवेट लिमिटेड
12	U45400WB2013PLC193840	अदिमूर्ति प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
13	U80901WB2014PTC199698	पेडागोगी एडुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
14	U27100WB2008PTC126602	करुणामोयी आइरन एंड स्टील कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
15	U50101WB2002PTC094352	एल. के. मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
16	U85110WB2006PTC107667	एविका हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
17	U40107WB2009PTC133267	सांतिनिकेतन बिकल्प सक्ति उत्पादन केन्द्र प्राइवेट लिमिटेड
18	U74999WB2012PTC182912	एच टिम टेन्नेरी प्राइवेट लिमिटेड
19	U85100WB2012PTC187393	ओप्सोनिन मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
20	U34300WB1987PTC042066	जे डी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
21	U74999WB2012PTC181496	सताब्दी हर्बल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
22	U51909WB2012PTC179389	विशवधाम व्यापार प्राइवेट लिमिटेड
23	U67120WB2012PLC183328	जेएस इन्शुरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड
24	U64202WB2012PTC184443	घोराई टेलिकॉम प्राइवेट लिमिटेड
25	U65999WB1995PTC075276	जुगनू फाइनेंशियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
26	U25209WB1998PTC086998	एसएमवी फ्रग्रांसेस एंड बोटल्स प्राइवेट लिमिटेड
27	U52390WB2010PTC151940	भवानीपुर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
28	U74140WB2010PTC151939	भवानीपुर एडवाइजरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
29	U72300WB2013PTC194916	नोर्मस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
30	U74999WB2012PTC180369	संजीवनागाहाट्रे मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड
31	U70109WB2012PTC184595	महातेजसी गृहनिर्माण प्राइवेट लिमिटेड
32	U74210WB2002PTC094238	एनडीजीपोसफोर्ड प्राइवेट लिमिटेड-
33	U67120WB1992PTC056556	अवध केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
34	U45400WB2010PTC153894	साउथेन्ड निर्माण प्राइवेट लिमिटेड
35	U01131WB2000PTC092244	पी.पी. एग्री इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. स.	सीएन.आई.	कम्पनी का नाम
36	U72200WB2012PTC171626	एसीडीम्स टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
37	U74900WB2012PTC188732	सन दाता सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
38	U65921WB1994PTC064731	रेक्सोन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड

दीप नारायण चौधुरी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में
हैदराबाद, दिनांक 12 अगस्त 2013

सं. आर ए पी / 560 (5) / कं-169/ 2013 /एस. आर दारा / 2013—कम्पनी अधिनियम, 1956 धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं:—

क्र.सं.	कम्पनी सिन	कम्पनी का नाम
01	U9300UAP2008PTC057367	सीएनर्जी प्र-सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
02	U45400AP2008PTC059784	डेक्कन हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
03	U92100AP1998 PTC029161	ग्लोबल इन्फोमैड सर्विसेस लिमिटेड
04	U24239AP2005PTC045959	ललित लाइव साइंसेस लिमिटेड
05	U45200AP1997 PTC027336	एस एम डी कंन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
06	U40107AP2009 PTC066508	ब्राइट लाइट एनजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
07	U24233AP2009 PTC06604	श्री रामदास केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
08	U01119AP2003 PTC041364	वी. एस. उदयान प्राइवेट लिमिटेड
09	U45200AP2005 PTC045586	आइशनी डिजाइन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
10	U74999AP2007 PTC052284	सोर्स वन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
11	U72200AP2005 PTC047024	सेन्टइन डॉटा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
12	U65990AP1994PLC018379	इंटीग्रेटेड फाइनांसियल एण्ड इन्वेस्टमेंट सर्विसेस लिमिटेड सर्विसेस
13	U92111AP1978 PTC002381	जनप्रिया फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
14	U15142AP1984 PTC004506	रामा कॉटन एण्ड ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
15	U67120AP2000 PTC035763	अयेषा इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
16	U22110AP2005 PTC047078	कॉस्मिक ग्राफिक्स एण्ड डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
17	U31300AP2003 PTC040700	श्री मारुती राघवेंद्रा मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
18	U21012AP1991 PTC013215	इन्डो गल्फ पैपर बोर्ड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
19	U20129AP2004 PTC044272	कोरल मोडयूलर फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड
20	U14200AP2007 PTC055370	ग्रान मिची इम्पेक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
21	U65910AP1993 PTC016484	स्वर्णाश्री फाइनान्स एण्ड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड
22	U73100AP2005 PTC047760	बयोनि बायो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
23	U45200AP2003 PTC040794	चैतन्या मंजरी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
24	U65921AP1994 PTC017543	बन्साल फाइनांसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
25	U40104AP2008 PTC058853	मनिराम पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
26	U24230AP1996 PTC024228	रेवती फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
27	U55100AP1996 PTC024193	आग्रा-वाला (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कम्पनी सिन	कम्पनी का नाम
28	U52520AP1987 PTC007984	शिवलाला मोतीलाला डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U31200AP2006 PTC051503	एशियन रिनिवेबुल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
30	U33119AP2004 PTC043990	स्टार ट्रेन्डस इन एनालईटिकल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
31	U72200AP2004 PTC037031	जीनोन नेट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
32	U61100AP2003 PTC042309	प्रोलाइन शिपिंग एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
33	U70102AP1987 PTC008029	देवी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
34	U70109AP1999 PTC031911	प्रोस एण्ड कोन्स एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
35	U05004AP2001 PTC036477	देवी फीड्स प्राइवेट लिमिटेड
36	U74900AP2008 PTC058519	पेर्कस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
37	U065992AP1997PTC027067	प्रांतीया चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
38	U72200AP1996 PTC025044	सिनफोलिक्स बिजीनेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
39	U72200AP2007 PTC055615	फोर स्कवेयर सॉफ्ट टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
40	U67120AP1989 PTC010707	रिचीमेन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
41	U24239AP2005 PTC046238	प्रसाद ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
42	U21012AP2008 PTC057507	जय भवानी बैम्बू प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
43	U74999AP2008 PTC058082	स्टैकलाइन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
44	U65992AP1982 PTC003451	शलीवाहु डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
45	U15311AP2006 PLC050962	पी सी एस पार बॉइलड राइस मिल्स लिमिटेड
46	U65992AP1994 PTC017378	किरण कृष्णा चिट्स एण्ड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड
47	U72200AP2005 PTC048298	सॉफ्टवेयर न्यूक्लियस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
48	U74210AP1978 PTC002259	विशाखा इंजीनियरिंग सेल्स एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
49	U01222AP2004 PTC044839	अरोमा पोल्ट्री प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
50	U72200AP2004 PTC043647	पल्ला आई टी आब्जेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
51	U45400AP2008 PTC061117	सूर्यानारायणा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
52	U41000AP2010 PTC070911	सोमा सोनीपत वॉटर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
53	U05004AP2012 PTC079395	अवंती हैचरीस प्राइवेट लिमिटेड
54	U72200AP1999 PTC032527	एम.एस. नेट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
55	U18100AP2006PTC049367	विजयालक्ष्मी मल्टी - टेक्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
56	U15143AP1991 PTC012622	स्वर्णा ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड
57	U05004AP2009 PTC065054	बोन्टी हैचरीज प्राइवेट लिमिटेड
58	U05004AP2011 PTC072713	पी एस आर एक्वा प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
59	U65993AP1996 PTC022900	एलवीके फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड
60	U74140AP1986 PTC006300	फोरटयूना मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
61	U29200AP2009 PTC065161	जी एस ई (वैजाग) प्राइवेट लिमिटेड
62	U15419AP2002PLC039028	अंजनी बेकरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
63	U21020AP2001 PTC036229	कनहन पैपर्स प्राइवेट लिमिटेड
64	U74210AP2008PTC059795	मेजॉर फ्लोरिंग्स एण्ड प्राइवेट लिमिटेड
65	U74920AP1999 PTC031459	किन्नेरा डिटेक्टिव एजेन्सी (इण्डिया) प्राइवेट लि.
66	U70102AP2008 PTC057976	ई ओ एस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
67	U65992AP1992 PTC015153	पारियाडा चिट फण्ड्स एण्ड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कम्पनी सिन	कम्पनी का नाम
68	U74999AP2006 PTC050940	एकटीव इको क्लाइमेट इन्नोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
69	U45400AP2007 PTC054903	जी आर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड
70	U27109AP1982PLC003623	कपाडिया आयरन एण्ड स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड
71	U65993AP1995 PTC019347	नवराम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनांसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
72	U52520AP1995PLC021344	ग्लोबल ट्रस्ट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
73	U92111AP1991 PTC012229	सत्याश्री मूवीस प्राइवेट लिमिटेड
74	U24110AP1989 PTC009960	निप्पोन प्लॉन्ट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
75	U74140AP1992 PTC013859	चार्टक कन्सल्टेन्सी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
76	U01229AP2003 PTC042164	सनस्पाइस एगो टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
77	U65992AP1972 PTC001543	अनारकली चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
78	U65992AP1982 PTC003399	गोलकोंडा चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
79	U65993AP1989 PTC010219	सिकन्दराबाद इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
80	U55101AP2008 PTC060948	ग्रीन ट्रेन्ड्स रेस्टॉरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
81	U74999AP2011 PTC074323	एस्पार ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
82	U40108AP2010 PTC067338	नियोसोलर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
83	U18109AP2008 PTC061869	आइकान ट्रीम्स प्राइवेट लिमिटेड
84	U65910AP1996PLC023433	डेक्कन फिनलीस सर्विसेस इण्डिया लिमिटेड
85	U45200AP2006 PTC050645	रिसइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
86	U65993AP1900 PTC004593	इंन्टेल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
87	U51909AP2000 PTC034672	गगन्स मिलेनियम एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
88	U65993AP1981 PTC002963	अहल्या एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
89	U74999AP2008 PTC058212	स्काइटी एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
90	U14102AP2011 PTC072478	विश्वतेज ग्रैनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
91	U01119AP2009 PTC064228	ए बी एस सीड्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
92	U85310AP2005 PTC048376	किम्स ग्रीनलीफ हेल्थकेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
93	U65921AP1994 PTC018822	सरत साई कन्सल्टन्स एण्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
94	U74994AP1996PLC024940	एम.के. टीम इंटीरियर्स लिमिटेड
95	U72200AP2004 PTC042803	बिज ट्यून् सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
96	U01111AP1995PLC020742	डेक्कन ग्रीन फीड्स लिमिटेड
97	U65993AP1991 PTC013326	मोनिटा फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
98	U29219AP1992PLC014383	पृथ्वी इन्टरनेशनल लिमिटेड
99	U65991AP1996 PTC025899	साई लीफिन प्राइवेट लिमिटेड
100	U70102AP1989 PTC010767	अन्नापूर्ण बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
101	U01403AP2008 PTC060596	जय श्री नवदुर्गा बायो-टेक प्राइवेट लिमिटेड
102	U17121AP2008 PTC058485	अमृत कॉटजिन प्राइवेट लिमिटेड
103	U01222AP1997 PTC028500	दासाराजु इक्विजम प्राइवेट लिमिटेड
104	U93000AP2008PTC060882	पार्कस एडवाइजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
105	U01110AP2006 PTC051612	भद्रगिरी फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
106	U24239AP2005 PTC047753	इन्टरसिंट लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
107	U65991AP1990PLC011371	श्री सत्या साई बेनिफिट सोसाइटी लिमिटेड

क्र.सं.	कम्पनी सिन	कम्पनी का नाम
108	U74140AP2006PTC048761	पेन्नीवॉइस एकाउंटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
109	U55101AP1992PLC014007	पीएस आर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
110	U18101AP1991PLC012609	विजय अप्पैरल्स प्राइवेट लिमिटेड
111	U15142AP2005PTC045976	संकरा नगर बायो फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
112	U85110AP2004 PTC044638	डेक्कन सर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
113	U67120AP1995PLC019361	कश्यप सिक्यूरिटीज लिमिटेड
114	U65993AP1995PLC019862	चित्तूरी फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
115	U10200AP1995PTC018574	मेरिक्लोन बयोलॉक प्राइवेट लिमिटेड
116	U45403AP2002 PTC039235	सिम्पली स्लीक इन्टीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
117	U24219AP1990 PTC011295	वी आई पी सेल्स एण्ड पेस्ट कंट्रोल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
118	U45200AP2004 PTC043057	वी वी एस होम्स प्राइवेट लिमिटेड
119	U24134AP1990 PTC011794	जेन पोलीमेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
120	U74999AP1988 PTC008524	जय नेट्स प्राइवेट लिमिटेड
121	U29297AP2003 PTC040693	पीवीके वॉटर टीम प्राइवेट लिमिटेड
122	U22110AP2006 PTC050209	रेड क्लोवर एजुकेशन कन्सलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
123	U24233AP2007 PTC056379	फाइन ड्रग्स एण्ड इन्टरमीडियट्स प्राइवेट लिमिटेड
124	U62200AP2008 PTC058746	श्री विगनेश्वरा एयर लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
125	U93000AP2009 PTC062809	एरियन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
126	U74900AP2008 PTC060925	अयिथि इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
127	U24219AP1997 PTC028418	नवीन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
128	U63022AP2005 PTC045643	देवी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
129	U74900AP2009 PTC065262	जॉब हाईक रिक्रूटमेंट प्राइवेट लिमिटेड
130	U45200AP2008 PTC058317	रॉकेट राइज कंन्सल्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
131	U31900AP2011PLC073303	आशाभानु प्लूटोन इंजीनियरिंग लि.
132	U51909AP2006 PTC050140	रेखा इक्विजम प्राइवेट लिमिटेड
133	U45203AP2008 PTC058480	अर्का इंफ्रावैचर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
134	U65992AP1995 PTC019814	रवि प्रिया चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
135	U85100AP2010 PTC066568	ए जे मिडसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
136	U67100AP2007 PTC055609	श्री संजीवनी इंटरप्राइजेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
137	U45203AP2008 PTC060370	तेजाश्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
138	U36104AP2009 PTC064171	वैजाग फोम प्राइवेट लिमिटेड
139	U65990AP1991 PTC013019	सिटीलाइन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लि.
140	U66010AP2001 PTC037874	एस एस इश्यूरेस एजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड
141	U25200AP1984 PTC004591	लोहिया प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
142	U55101AP2011 PTC072865	प्राइम फोनिकस रिट्रीट्स एण्ड हॉस्पिटालिटी (आं. प्र) प्राइवेट लिमिटेड
143	U72200AP2000 PTC033995	विजडेन सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
144	U45209AP2007 PTC055487	सुमीरु हाईटेक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
145	U45200AP1993 PTC016718	अफ्रा कंन्सल्टेशन प्राइवेट लिमिटेड
146	U72200AP2006 PTC051657	इंप्रोफाई सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
147	U15124AP2008 PTC061519	इण्डिया वेल्थ मेरिन फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कम्पनी सिन	कम्पनी का नाम
148	U52520AP2004 PTC044168	सॅन सेवेन इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लि.
149	U45200AP2004 PTC044489	मयूरी मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड
150	U27106AP2001 PTC037138	क्लॉक स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
151	U51909AP2011 PTC072847	वेल्लंकी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
152	U70102AP2007PLC052434	चमत्कार होम्स लिमिटेड
153	U32204AP1999 PTC032180	अग्नि केबल प्राइवेट लिमिटेड
154	U65910AP1994PLC017423	विक्रमशिला फाइनान्स एण्ड लीजिंग प्रा. लिमिटेड
155	U01119AP2008 PTC058580	विवोर्जेंट बायोसाइंसेस प्राइवेट लि.
156	U74210AP2004 PTC043525	वर्मा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
157	U01119AP2002 PTC038917	पवित्र सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
158	U45200AP1999 PTC031083	वसिस्टा टेक्सटाइल्स एण्ड प्रोमोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
159	U66000AP2012 PTC081356	फौजनेड सुरक्षा प्राइवेट लिमिटेड
160	U74900AP2007 PTC054666	एच एल इलेक्ट्रिकल इन्सूलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
161	U52520AP2002 PTC039409	डिजीसिव मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
162	U74300AP2003 PTC041333	क्लिकज कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लि.
163	U74900AP2008 PTC059594	मेगावाल्सू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
164	U74120AP2006 PTC051387	पीगासेस फूड एण्ड ब्रेवरेज प्राइवेट लिमिटेड
165	U01403AP2011PLC076415	शमन्ता एग्री लिमिटेड
166	U01119AP2005 PTC048555	विजया एनिमल न्यूट्रिशन्स प्राइवेट लिमिटेड
167	U72200AP2006 PTC050157	आई टैब्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
168	U63022AP2002 PTC038316	श्री अमृतलिंगेश्वरा कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
169	U45200AP2007 PTC052989	पी के पी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

शशि राज दारा
उप कम्पनी पंजीयक
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में

हैदराबाद, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

सं. आर एपी /560 (5)/ को -131/ 2013/एस आर दारा/2013—कम्पनी अधिनियम, 1956 धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं :-

01	U45203AP2011PLC073071	स्यू डीएसवै टोल्फ्री लिमिटेड
02	U14200AP2007PTC055284	ट्रस्टोन मिनिरल्स प्राइवेट लिमिटेड
03	U92132AP1994PTC017620	सेंटर चान्नल प्राइवेट लिमिटेड
04	U74140AP2004PTC042775	राज अण्ड को एडवइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
05	U74900AP2008PTC061885	लिंगपिन ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
06	U70102AP2009PTC062503	श्रिनिवासा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

07	U72200AP1999PTC032168	मिडिटइम्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
08	U45209AP2010PTC069813	जालासाधना इन्फ्र सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
09	U93000AP2009PTC064369	श्री अदिलक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
10	U45209AP2010PTC066870	अडिकोर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
11	U85110AP2003PTC041493	पी आर एन मेडिकल मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
12	U74200AP2009PTC065648	सुगति इजिनीरिंग कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
13	U24233AP2009PTC063444	एम बी लैफकेयर प्राइवेट लिमिटेड
14	U72200AP2011PTC072242	अक्विता सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
15	U35900AP2008PTC058501	पी एम आर वेयरहउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
16	U72900AP2008PTC061893	विक्कीस टेक्नोलॉजी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
17	U40104AP2008PTC058853	मिनराम पॉवर प्राजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
18	U72200AP2005PTC048462	अफाबल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
19	U74900AP2008PTC058712	ई एम आर ट्रेजरी सोल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
20	U74999AP1991PTC012903	श्री वेंकटेश्वरा टर्बो प्रोफइल्स प्राइवेट लिमिटेड
21	U67120AP1987PTC007200	फिनो इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
22	U27100AP2008PTC058151	श्री साई विणायका स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
23	U85100AP2009PTC065237	बे व्यू हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
24	U14291AP1982PTC003705	सधर्ण डैमैन्ड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
25	U74999AP2011PTC074155	ब्लू बे टर्मीनल्स प्राइवेट लिमिटेड
26	U55101AP2002PLC039220	यूरो रूम्स डैरेक्ट सोल्यूशन्स लिमिटेड
27	U27100AP2008PTC058346	डक्कन अल्लोय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
28	U28932AP2008PTC060291	निप्पोन कटिंग टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U40300AP2010PLC067850	छाया आदित्या एनर्जी लिमिटेड
30	U22300AP2004PTC044510	स्टीकऑन प्रिंट पैक सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
31	U15419AP2002PLC039028	अंजनी बेकरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड
32	U45203AP2006PTC052017	निलश्री प्रोपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
33	U73100AP2011PTC076387	नोविटास रिसर्च लॉब्स प्राइवेट लिमिटेड
34	U45400AP2009PTC062928	ली-सुन्नित रियल्टर्स अण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
35	U45201AP1994PTC018086	भास्करा हउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
36	U65993AP2006PTC048872	लान्प्रो ट्रस्टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
37	U31401AP2009FTC064492	क्रेग अण्ड डेरीकोट (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
38	U40108AP2010PTC067338	नियोसोलार सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
39	U40300AP2010PTC067617	रघु सोलार पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
40	U93000AP2009PTC065964	एल एन कन्सल्टेन्सी अण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
41	U18109AP2008PTC061869	अइकॉन ट्रिम्स प्राइवेट लिमिटेड
42	U34102AP2004PTC042860	तपस्वी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड

43	U72900AP2011PTC073111	अनोहा वेब टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
44	U72200AP2005FTC046225	नियुलइट इण्डिया सेमिकन्डक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
45	U74210AP1984PTC004426	स्पेक्ट्रा इंजिनीरिंग को प्राइवेट लिमिटेड
46	U45400AP2008PTC057249	पद्मावती विल्लास प्राइवेट लिमिटेड
47	U72200AP2005PTC048330	सस्टैनलेन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
48	U72200AP2005PTC047802	इग्लीली सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
49	U65993AP1981PTC002963	अहल्या एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
50	U65910AP1996PTC024908	राती बॅल्क केरियर प्राइवेट लिमिटेड
51	U72200AP2011PTC076666	एबी जी टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
52	U40106AP2010PTC070613	भारती मॅल्क सोलार एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
53	U72200AP1998PTC030328	विकास इन्सटिट्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
54	U45200AP2002PTC039789	बार कन्सल्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
55	U72200AP2007PTC052749	मानिगारि सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
56	U72200AP2009PTC065410	अवा ईसी टेक्नोलोजीस सीप्राइवेट लिमिटेड
57	U72200AP2011PTC074968	ए आर क्यूब ऑनलइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
58	U65992AP1996PTC024378	श्री साई सूर्य चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
59	U72200AP2006PTC050662	ब्रह्मा सडबर टेक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
60	U01122AP1988PTC008996	सोकियो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
61	U31908AP2010PTC071396	ईसीलैफ किचेन्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
62	U45200AP2007PTC055453	मारोजु इंजिनीर्स एण्ड कन्सल्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
63	U70102AP2007PTC056098	ईका रियल एस्टेट्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
64	U15203AP2008PTC060880	पार्क डेयरी अडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
65	U99999AP1994PTC018428	आर एस पेप्स प्राइवेट लिमिटेड
66	U74999AP2009PTC065560	बी वी डिजैन्स एण्ड ज्वेल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
67	U72200AP2008PTC058005	मयोर अईटी कन्सल्टिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
68	U45209AP2008PTC057943	स्कोजेम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
69	U24120AP2008PTC061757	मेघा फर्टिलैजर्स एण्ड कैमिकल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
70	U45400AP2010PTC068755	श्री नन्दना इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
71	U24233AP2010PTC070641	मिलेंगे फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
72	U40300AP2010PTC070021	वासवी महतोली गैस पॉवर प्लांट प्राइवेट लिमिटेड
73	U55101AP2008PTC057845	अईकॉन हस्पिटालिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
74	U40300AP2012PTC080060	ऑस्टर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
75	U66000AP2009PTC066130	सनरैस अस्सुरेन्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
76	U72900AP2012PTC080163	ई अनिमीडिया सोल्युशन्स हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड
77	U74999AP2008PTC057127	एम एन आर केरियर एण्ड बियोण्ड प्राइवेट लिमिटेड
78	U24219AP1990PTC011295	वी अई पी सेल्स एण्ड पेस्ट कंट्रोल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

79	U28999AP2004PTC043601	सीनिक रूट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
80	U70102AP2008PTC060208	ग्रीनफील्ड लैण्डस्केप सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
81	U72900AP2004PTC042415	अंजी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
82	U74900AP2009PTC065262	जॉबहङ्क रिक्रूटमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
83	U72200AP2005PTC047194	चारविकास इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
84	U45203AP2008PTC058480	अर्का इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
85	U72200AP2011PTC076738	वरिस्टा आईटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
86	U72200AP2007PTC053858	मास्त मैण्डस सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
87	U24100AP2009PTC062543	श्रीकारा ऑर्गानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
88	U85100AP2010PTC066568	एजे मेडसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
89	U45200AP2005PTC047580	स्पुर कन्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
90	U74900AP2010PTC070029	ला वोवोस अर्चीटेक्चरल सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
91	U65991AP1995PLC020085	श्रीचक्रा पर्मनैन्ट फण्ड लिमिटेड
92	U92130AP2010PTC06848	इन्टरकॉन्टीनेन्टल मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
93	U40300AP2008PTC061807	अस्ता ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
94	U15400AP2010PTC070432	वैशोदेवी विटल न्यूट्रियन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
95	U55101AP2008PTC057432	डी हेच वी फर्टीयून होटेलस अण्ड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
96	U67120AP2008PTC061518	इण्डियावेल्थ शेयर्स अण्ड सेक्युरिटीस प्राइवेट लिमिटेड
97	U24130AP1993PTC015986	वैकी प्लास्टीक्स प्राइवेट लिमिटेड
98	U72200AP1999PTC031788	ईप्लस कन्सलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
99	U72900AP2008PTC060889	अॅरिगा अइवइजोरी सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
100	U70102AP2007PLC052434	छामात्कार होम्स लिमिटेड
101	U72900AP2010PTC068597	कोडस्पार्क सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
102	U72300AP2012PTC080610	फैंजनेट टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
103	U70102AP2007PTC052666	सेफ हेवेन लैण्ड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
104	U72200AP2005PTC048216	सिना-जी टेक्नोलोजी सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
105	U63013AP1995PTC020927	अण्विल ट्रान्स सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
106	U74900AP2007PTC054939	शेत सुंदर बयोमेडिक प्राइवेट लिमिटेड
107	U45400AP2007PTC055591	करिष्मा होम्स प्राइवेट लिमिटेड
108	U24129AP2005PLC045110	विक्टर आग्री इण्डस्ट्रीस लिमिटेड
109	U45200AP2009PLC064577	नवशक्ती इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
110	U70102AP1987PLC007819	रेचेली फौण्डेशन लिमिटेड
111	U01212AP1994PTC017883	रघु मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
112	U93000AP2008PTC056935	केल्टोन इन्सुरेन्स सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
113	U01119AP2007PTC055936	स्कैलार्क अग्रीकल्चरल फार्मास प्राइवेट लिमिटेड
114	U01229AP1987PTC007861	प्रगति हैचरीस प्राइवेट लिमिटेड

115	U66010AP2011PTC072307	सिनर्जी इन्सुरेन्स ब्रोकिंग अण्ड रिस्क मेनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
116	U74140AP2002PTC039809	बयोल्स कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
117	U70102AP2005PTC047500	किन्नेरा कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
118	U74999AP2010PTC069046	फिनीडू सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
119	U51397AP2007PTC054128	श्रीमुखा टेक्नोमार्क प्राइवेट लिमिटेड
120	U24239AP2002PTC038553	सिग्मा अलकैम प्राइवेट लिमिटेड
121	U45202AP2007PTC056250	फ्रयूचरेज पार्कींग प्राइवेट लिमिटेड
122	U85110AP2003PTC042152	उच हेरिटेज हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
123	U70102AP2008PTC060995	टी अण्ड सी इन्फ्रस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
124	U72100AP1998PTC029692	फेस सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
125	U80901AP2008PTC061175	स्टडीहोरिजोन कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
126	U40101AP2008PTC060306	टेस्ला एनर्जी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
127	U55101AP2007PTC052847	पी वी पी रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
128	U70102AP2007PTC052678	माग्नम ओपस रियल एस्टेट्स अण्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
129	U70102AP2007PTC052626	स्पुटनिक रियल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
130	U72200AP2007PTC056036	इन्टीलीजेंट डायमन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
131	U40300AP2010PTC067272	प्रिस्म एनर्जी अण्ड ऑटोमेशन सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड

शशि राज दारा
उप कम्पनी पंजीयक
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में
हैदराबाद, दिनांक 01 जनवरी 2014

सं. आर एपी /560 (5)/ को -71/ 2013/एस आर दारा/2013—कम्पनी अधिनियम, 1956 धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं :—

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम	560(5) का दिनांक
01	U27107AP1996PLC024280	लीविन स्टीलस लिमिटेड	07/11/2013
02	U92200AP2007PTC052754	नियो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
03	U05005AP2003PTC040457	श्रीलक्ष्मीसरनअगो अण्ड अक्वा फार्मास प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
04	U72200AP2006PTC051411	कावा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
05	U72200AP2007GAT055180	अईलिट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
06	U67120AP1987PTC007200	फिनो इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	19/08/2013
07	U45400AP2010PTC070139	हिमजा इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
08	U63022AP2006PTC049954	जोशिता दीप कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम	560(5) का दिनांक
09	U16001AP1992PTC014450	श्री वेंकटरमण टोबाको कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
10	U74210AP1994PTC017752	वेम्सी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
11	U72200AP2009PTC065883	रेड-जेम सॉफ्टवेक प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
12	U27100AP2010PLC069543	एस एस जी अल्लोईस लिमिटेड	01/01/2014
13	U40101AP2009PTC064738	अकुमा इंडस्ट्रियल अण्ड पॉवर प्रोजेक्ट्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
14	U65922AP1984PLC004453	पियोनीर हउसिंग फैनान्स लिमिटेड	07/11/2013
15	U28113AP2010PTC069872	इन्वेंचर मेटल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
16	U74999AP2009PTC064902	एस मीडिया वेंकर्स प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
17	U40105AP2007PTC053067	एस नौ पीक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
18	U70109AP2013PTC089368	मधुबन होम्स प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
19	U24110AP1994PTC017481	विजयावानी कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
20	U01120AP1964PTC001028	दी सौथ इंडिया पीसन्ट्स फार्मिंग अण्ड मार्केटिंग सिन्डिकेट प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
21	U65993AP1996PTC025767	साका क्रेडिट केपिटल प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
22	U55101AP2010PTC070731	स्वीनी होटेल्स अण्ड टॅवर्स प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
23	U74900AP2007PTC054718	नैन जेम्स अण्ड जिवेल्लीरी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
24	U45200AP2008PTC060282	ब्लूफोर्स रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
25	U29120AP1987PTC007910	इम्मार इण्डस्ट्रीयल वाल्व्स प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
26	U11101AP2008PTC058407	वेंचुरा बयोफ्यूल् (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
27	U73100AP2008PTC058541	इंडिजिनीस बयोटेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
28	U01122AP2006PTC049023	श्री वसंती नर्सरीस प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
29	U01111AP2006PTC049011	श्री वम्सदारा हर्टीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
30	U70102AP2009PTC062438	हिटाप इन्नोवेटिव रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
31	U74999AP2008PTC058123	विशॉन फिस्कल सर्विसेस अण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
32	U45209AP2008PTC058607	आर्यमित्र इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
33	U72200AP1995PLC020847	ईसट इंडिया रिसोर्सिनल टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
34	U70102AP2007PTC056219	श्रीधरविष्णू रियल एस्टेट कन्सल्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
35	U45209AP2011PTC077111	सूपरबेन्ड्स बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
36	U27109AP2006PTC049538	बिन्जराजका प्रोफइल्स प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
37	U93000AP2008PTC061405	निक्संस पर्सनल फइनान्सीयल प्लान्नेर्स प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
38	U24230AP2009PTC063118	मिडिकलेडज हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
39	U15419AP2010PTC068019	बैंगरोला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
40	U72900AP2009PTC062958	सॅनपाक सॉफ्ट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
41	U24110AP1991PTC012713	क्रिशिवाल कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
42	U74140AP1994PTC018981	तेजास कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम	560(5) का दिनांक
43	U01122AP2005PTC048156	अभ्युदया आग्री टेक अण्ड कोमोडिटीस प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
44	U72200AP2006PTC051280	फलपॉवर टेक्नोलोजीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
45	U72200AP1997PTC026770	सी डी टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
46	U17121AP1994PTC019059	विजया गणेश फेब्रिकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
47	U74300AP2008PTC057237	भाग्यानगर मीडिया सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
48	U72200AP2001PLC037034	आसीव्हील नेटवर्क लिमिटेड	01/01/2014
49	U72200AP1998PTC029704	इन्सइट सोल्युशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
50	U45209AP2008PTC057707	मईटास हिल कॅउन्टी प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
51	U45209AP2008PTC057710	मईटास रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
52	U74999AP2008PTC058276	क्विंग इंजिनीर्स प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
53	U55101AP2008PTC058383	सइबरसिटी होटेल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	06/11/2013
54	U27109AP2006PTC049384	मोकिन इंजिनीर्स प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
55	U01119AP2010PTC070057	ओस्टारा अग्रीसइन्सेस प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
56	U24110AP1991PTC012763	स्वाती ड्रग एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
57	U74120AP2011PTC073755	लोअम कन्सल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
58	U72200AP2005PTC046106	स्वीनसॉफ्टस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
59	U45200AP2010PTC067105	क्रिष्णाकोन प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
60	U01403AP2009PTC062506	इंडू ग्रीन फील्डस प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
61	U72200AP1997PLC026328	इननेट टेक्नोलोजीस लिमिटेड	07/11/2013
62	U72200AP2005PTC048202	निष्ठा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
63	U45200AP2007PLC053109	सारास इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
64	U70102AP2012PTC083914	ट्रीडेंट हेप्पी निवास प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
65	U74120AP2007PTC052574	गोदावारी इन्फ्राकोन प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
66	U45400AP2007PTC053489	पी वी पी मेगापोलिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
67	U27103AP2005PTC048205	असाको प्रोसेस्सिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
68	U74120AP2012PTC083290	बीमटेक मेटेल्लर्जीस प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
69	U01119AP2009PTC064417	एस आर के आर केयर प्राइवेट लिमिटेड	07/11/2013
70	U72200AP2011PTC076406	विंटीफाक्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
71	U40105AP2013PTC086687	प्रशस्ती रिनिवेबूल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014

शशि राज दारा
उप कम्पनी पंजीयक
आंध्र प्रदेश

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 10th November 2014

As per revised classification of posts on establishment of this Registry, the post of Senior Assistant Librarian is classified as Group 'A' post and the following officers are holding the post of Senior Assistant Librarian:-

S.No.	Name
1.	Sh. V. Arunachalam
2.	Ms. Poonam Sharma
3.	Ms. Jyotsana Eveline Reuben
4.	Sh. Ashok Kumar Naugain

M.K. HANJURA
Registrar (Admn.I)

The 18th November 2014

No. F.20/2014-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri V.S.R. Avadhani, Secretary General [Officer on Special Duty] as Secretary General, Supreme Court of India, on deputation basis, with effect from the afternoon of 15th November, 2014, until further orders.

M.K. HANJURA
Registrar (Admn.I)

No. F.20/2014-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to repatriate Shri Ravindra Maithani, a member of Uttarakhand Higher Judicial Service who is on deputation to this Registry as Secretary General, to his parent cadre i.e. High Court of Uttarakhand with effect from the afternoon of 15th November, 2014 and is accordingly, relieved of his duties in this Registry w.e.f afternoon of 15th November, 2014.

M.K. HANJURA
Registrar (Admn.I)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 12th November 2014

No. DP/Pers-I/2014/95/3/76/2010—Shri Subhash Chandra Gupta has relinquished charge of the post of Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 31.10.2014 on attaining the age of retirement on superannuation.

DEEPIKA SURI
Dy. Director (Pers.)

No. DP/Pers-I/2014/97/3/3/101/2014—Shri N.S. Yadav has relinquished charge of the post of Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 31.10.2014 on attaining the age of retirement on superannuation.

DEEPIKA SURI
Dy. Director (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110 003 the 13th November 2014

No.P.VII-1/2014-MIN—Consequent on their promotion to the post of Assistant Commandant [Private Secretary], the following Subedar Major [Steno] have taken over charge as Assistant Commandant [Private Secretary] in the Offices and dates as mentioned against each :--

Sl. No.	Name of Officer	Office in which Posted	Date of taking over charge.
01	Shri Nirmal Singh, Assistant Commandant [Private Secretary] [IRLA-10354]	O/O Spl DG, J&K Zone, Central Reserve Police Force, Jammu	08/09/2014 [FN]
02	Shri K. Girithar, Assistant Commandant [Private Secretary] [IRLA 10355]	O/O Spl DG, J&K Zone, Central Reserve Police Force, Jammu	16/09/2014 [FN]

S.K. UPADHYAY
DIG (Organisation)

New Delhi-110003, the 17th November 2014

No. O.II.4007/2014-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Chandrima Kar selected candidate of MOSB-2013, as Specialist Medical Officer (Gynecology)/(Deputy Commandant) in Central Reserve Police Force in the pay band of Rs. 15,600--39,100/- plus Grade pay Rs.6,600/- in temporary capacity wef 07.11.2014(FN) until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. PANWAR
DIG(Pers)

The 21st November 2014

No. O.II. 3638/07-Pers-MOs—Consequent on acceptance of his resignation by the competent authority, Dr. Ashok Kumar Sharma, Chief Medical Officer (OG), IRLA-5985 of 83 Bn,CRPF relinquished the charge of his post on the afternoon of 19th May, 2014.. Accordingly, his name is deleted from the rolls of the Force wef 19.05.2014(AN).

M. C. PANWAR
DIG(Pers)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRALRECEIPT)

New Delhi- 110002, The 12th November 2014

No. Admn.I/O.O. No.-66—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Chaman Bhandari, Senior Audit Officer (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) of this office will be retiring from Government Service on 30.11.2014 (A/N).

His date of birth is 15.11.1954 and he joined Government service on 25.03.1983.

Director (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
ANDHRA PRADESH & TELANGANA

HYDERABAD – 500 004, the 18th November 2014

No. Admn.-I/A&E/I/4-26/2014-15/23068—The Accountant General(A&E),Andhra Pradesh & Telangana, Hyderabad is pleased to regularize the under mentioned Adhoc Assistant Accounts Officers to officiate as Assistant Accounts Officers in the Pay Band of Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4800 with effect from the date mentioned below: —

Sl.No.	Name	O.O.No & Date	Date of assumption of Charge as A.A.O.
1.	Ms G Rajalakshmi	Admn.I/U-I/4-26/ 2014-15/ 109 dated 03-11-2014	03.11.2014 FN
2.	Sri A V R N Srinivas	Admn.I/U-I/4-26/ 2014-15/ 109 dated 03-11-2014	03.11.2014 FN

The regularization is ordered without prejudice to the claims of their seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the High Court of Andhra Pradesh & Telangana/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

SIG./-ILLEGIBLE
Dy. Accountant General(Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (G&SSA)
ANDHRA PRADESH AND TELANGANA,

Hyderabad – 500 004, the 19th November 2014

No. Admn.-I/Prom./8-132/F.61A/2014-1555—Smt. Prasanna Kumari M, Senior Private Secretary of this office expired on 01.10.2014.

ANITHA BALAKRISHNA
Sr. Dy. Accountant General
(Administration)

No. Admn-I/Prom./8-132/F-61-A/2014-15/56--Principal Accountant General is pleased to promote the following Personal Assistant to officiate as Private Secretary in the Pay Band-2 of Rs. 9300-34800 with Grade Pay Rs. 4600/- with effect from the date mentioned against her name.

Sl No	Name of the Officer (Sri./Smt./Ms.)	Office Order No./Date	Date of assumption of charge
1.	Vijaya Lakshmi P	100/ 12.11.2014	12.11.2014 FN

The above promotion is ordered without prejudice to the claims of her seniors, if any, and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

The above officer is not eligible for further fixation of pay as she was already allowed financial up-gradation under MACP Scheme, in the Pay Band 2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/-.

ANITHA BALAKRISHNA
Sr. Dy. Accountant General
(Administration)

No. Admn-I/Prom./F-58 /2014-15/57—Principal Accountant General is pleased to promote, the following Senior Auditors/ Auditors/ DEOs to officiate as “ASST. AUDIT OFFICER (CIVIL)” in the Pay Band-2 of Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4800/- with effect from the date mentioned against their names:-

Sl. No	Name of the Official (S/Sri/Smt./Kum.)	Office order no./ Date	Date of assumption of charge
1.	VASU MITHRA K	96/ 05.11.2014	05.11.2014
2.	SESHA PAVAN KUMAR K	96/ 05.11.2014	05.11.2014
3.	SAIDARAO NELLURI	96/ 05.11.2014	05.11.2014
4.	BIKRAMSEN NAYAK	96/ 05.11.2014	10.11.2014
5.	SIKENDRA KUMAR	96/ 05.11.2014	07.11.2014
6.	UMAMAHESWARA RAO P	96/ 05.11.2014	05.11.2014
7.	SHOBHA KANT SINGH	96/ 05.11.2014	05.11.2014
8.	BALRAM ROY	96/ 05.11.2014	05.11.2014
9.	LAKHAN SINGH MEENA	96/ 05.11.2014	05.11.2014

The officials at Sl. Nos. 01 and 02 are not eligible for further fixation of pay as they were already allowed financial upgradation, under MACP Scheme, in the Pay Band-2 of Rs. 9,300--34,800/- with Grade Pay Rs.4,600/-, however, the difference of Grade Pay would be made available as per DOPT OM No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19.05.2010.

The officials at Sl. Nos. 03 to 09 should exercise option for fixation of pay within one month from the date of their promotion in terms of Govt. of India, O.M.No. F.No. 1/1/2008-IC dated 13.09.2008.

The above promotions are ordered without prejudice to the claims of their seniors, if any, and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

ANITHA BALAKRISHNA
Sr. Dy. Accountant General
(Administration)

No. Admn-I/Prom./8-132/F-59/2014-15/58—Principal Accountant General (G&SSA), Andhra Pradesh and Telangana, Hyderabad hereby declares the retirement of the following Sr. Audit Officers (Civil) with effect from the date mentioned against their names:

Sl. No.	Name of the Officer (S/Sri/Smt.)	Date of Retirement
1.	Jacob Udaya Kumar U	30.09.2014 AN
2.	Nageswara Rao W	31.10.2014 AN

ANITHA BALAKRISHNA
Sr. Dy. Accountant General
(Administration)

MINISTRY OF DEFENCE (FINANCE)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS,

DELHI CANTT. – 110010, the 10th November 2014

No.AN-I/1171/PCDA/2013-14—President is pleased to grant proforma promotion under Next Below Rule (NBR) to undermentioned officer on promotion to the grade of Principal Controller of Defence Accounts and equivalent posts in the Indian Defence Accounts Service in the scale of pay of Rs. 67,000/- (Annual Increment @ 3%) – 79,000/- (Pre-revised pay scale of Rs. 22,400--525-24,500/-) with effect from the date indicated against her name and until further orders:-

Sl. No.	Name of the officer	Date of appointment to the grade of Principal Controller of Defence Accounts & equivalent posts
1.	Smt. Anuradha Prasad	01.07.2014 (Proforma Promotion)

PRAVEEN KUMAR RAI
Dy. Controller General of Defence Accounts (Admin.)

No.AN-I/1172/SAG/2014-15—President is pleased to grant proforma promotion under Next Below Rule (NBR) to undermentioned officer to the Senior Administrative Grade in the Pay Band-4 Rs. 37,400--67,000/- with Grade Pay Rs. 10,000/- (Pre-revised pay scale of Rs. 18,400--500--22,400/-) in the Indian Defence Accounts Service with effect from the date indicated against his name and until further orders:-

Sl. No.	Name of the officer	Date from which appointed to the Senior Administrative Grade
1	Shri Mihir Kumar	23.09.2014 (Proforma Promotion)

PRAVEEN KUMAR RAI
Dy. Controller General of Defence Accounts (Admin.)

No. AN-I/1174/JAG/2014-15—President is pleased to grant promotion the undermentioned officers to the Junior Administrative Grade in the Pay Band—3 Rs.15,600—39,100/- with Grade Pay Rs.7600 (Pre-revised pay scale of Rs. 12,000--375-16,500/-) in the Indian Defence Accounts Service with effect from the dates indicated against their names and until further orders :-

Sl No.	Name of the officer	Date from which appointed to Junior Administrative Grade
1	Shri Laxman Likhar	19.08.2014 (FN)
2	Shri Nabarun Dhar	19.08.2014 (AN)
3	Shri Sangeet	20.08.2014 (AN)
4	Shri Balram Kumar	19.08.2014
5	Shri M.S. Saravanan	26.08.2014 (FN)

PRAVEEN KUMAR RAI
Dy. Controller General of Defence Accounts (Admin.)

The 12th November 2014

No. AN-I/1175/VII/CGDA —President is pleased to appoint Shri Arvind Kaushal, an officer of the Indian Defence Accounts Service, as Controller General of Defence Accounts in the scale of pay of Rs. 80000/- (fixed), with effect from 01st November, 2014 (Afternoon) and until further orders.

PRAVEEN KUMAR RAI
Dy. Controller General of Defence Accounts (Admin.)

The 17th November, 2014

No. AN-I/1172/SAG/2014-15—President is pleased to grant promotion to the undermentioned officers to the Senior Administrative Grade in the Pay Band—4 Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay Rs. 10,000/- (Pre-revised pay scale of Rs. 18,400—500—22,400/-) in the Indian Defence Accounts Service with effect from the dates indicated against their name and until further orders:-

Sl No.	Name of the officer	Date from which appointed to the Senior Administrative Grade
1.	Shri A.K. Pradyot	13.10.2014 (FN)
2.	Shri Kanwaldeep Singh	07.11.2014 (FN)
3.	Shri Amit Prasad	26.09.2014 (FN)
4.	Smt. Richa Misra	23.09.2014 (AN)
5.	Shri K. Balakrishna	25.09.2014 (FN)

PRAVEEN KUMAR RAI
Dy. Controller General of Defence Accounts (Admin.)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
LABOUR BUREAU

Shimla-171 004, the 31st October 2014

No. 5/1/2014-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base:2001=100 remained stationary at 253 (two hundred fifty three) for the month of September, 2014.

S. S. NEGI
DIRECTOR

KHAN MANTRALAYA
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

KOLKATA – 700 016, the 10 October 2014

No. /A-35018/DDG(P&A)/2014-15 /19C—The President is pleased to approved the appointment of Ms. Jayati Ghosh to the post of Deputy Director General(Personnel & Administration), Geological Survey of India, in the pay scale of Rs. 37400/- -67000/- (PB-4) + GP Rs. 10000/- on deputation basis for a period of five years with effect from the forenoon of 10.10.2014 or until further orders, whichever is earlier.

C. MURALEEDHARAN
Director (P)
for Director General

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai – 85, the 17th November 2014

No. 93/Notification./I&II/ OPP/149970—The Officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished charge of the post held by them, as indicated in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof :-

Sr. No.	Name of the officer	Relinquished the charge of the post of	Date of relinquishment	Event
1	Dr. S.K. Apte	DS	31/10/2014(AN)	Retirement after two years Extension of Service
2	Dr. N. Krishnamurthy	OS	31/10/2014(AN)	Superannuation
3	Dr. A.K. Sharma	OS	31/10/2014(AN)	Retirement after two years Extension of Service
4	Dr. (Smt.) Hemalatha Padmanabhan	SO/E	31/10/2014(AN)	Superannuation
5	Dr. R.C. Hubli	OS	31/10/2014(AN)	Superannuation
6	Dr. (Smt.) Sreedevi B.	SO/G	31/10/2014(AN)	Superannuation
7	Dr. Manmohan Singh Bhatia	OS	31/10/2014(AN)	Superannuation
8	Shri Ismail Abdul Sarjekhan	SO/E	31/10/2014(AN)	Superannuation
9	Shri Ram Kishan	OS	31/10/2014(AN)	Superannuation

H. MISHRA
Controller

Mumbai-85, the 14th November 2014

No. PD/7(5)/2014-R-IV/SO(D)/ETG/13391—The President is pleased to appoint Shri Biju M.G., Scientific Officer/Engineer Grade `C` pay band of Rs. 15,600—39,100/- + grade pay Rs. 5,400/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade `D` in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- + grade pay Rs. 6,600/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2013, in an officiating capacity until further orders.

M. V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 14th November 2014

No. HWB/R/1(36)-Tut./2014/5367—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Smt. S. Roseline P. Rayer, Stenographer Grade.I (Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,200/-), Heavy Water Plant (Tuticorin) to officiate as Private Secretary (NS) in the Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,600/- in the same Plant from the forenoon of 26th November, 2013 until further orders.

K.S. PILLAI
Administrative Officer-III

No. HWB/R/1(10)-Tut./2014/5401—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri T.V.R. Bapanna Sastry, Assistant (Pay Band-2 ₹ 9300-34800 with Grade Pay ₹ 4600/-) NFC, Hyderabad to officiate as Labour-cum-Welfare Officer in the Pay Band-2 ₹ 9300-34800 with Grade Pay ₹ 4800/- in Heavy Water Plant (Tuticorin) from the forenoon of 21st August, 2014 until further orders.

K.S. PILLAI
Administrative Officer-III

RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore, the 7th November 2014

No. RRCAT/Admn/R-738/OCES-13/1293—The President of India is pleased to appoint the following Trainee Scientific Officers as Scientific Officers 'C' in the Pay Band-3: ₹ 15600-39100 + Grade Pay ₹ 5400/- with effect from forenoon of 01.08.2014 in an officiating capacity in the Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders:

Sr.	CC No.	Name
1	2036	Shri Vikas Kumar Singh
2	2037	Kum. Geetanjali
3	2038	Kum. Amrita Srivastava
4	2039	Pawan Kumar Gauttam
5	2040	Deshmukh Pratik Prataprao

B.K. JENA
Chief Administrative Officer

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad – 500 062, the 17th November 2014

No. NFC/PAR-I/03/50(a)/2324—Chief Executive, Nuclear Fuel Complex appoints Shri Unmesh S. Chaskar, Public Relations Assistant to officiate as Assistant Public Relations Officer in Pay Band 2 of Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4800/- in temporary capacity with effect from 03.11.2014 (FN), until further orders.

A. Jaya Krishna
Administrative Officer-III

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of following Companies

New Delhi-110019, the 14th November 2014

No. RoC/Delhi/August 14/560(5) Publ./FTE-2011/8906—Notice is hereby given under sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved:—

SL. No.	CIN	COMPANY NAME
1	2	3
1.	U65992HR1993PTC032144	UNITEX CHITS PVT LTD
2.	U65992HR1998PTC033862	KESHGARH SAHIB CHITS PVT. LTD.
3.	U74899HR2005PLC035812	NEW WORLD SYNTHETIC LIMITED
4.	U74899DL1980PTC010379	ODYSSEY INTERNATIONAL PVT.LTD.
5.	U74899DL1985PTC020494	MASK OVERSEAS MARKETING PRIVATE LTD
6.	U74899DL1986PTC026153	JASBIR SINGH AND COMPANY PRIVATE LTD.
7.	U74899DL1987PTC029953	KWATRA KOTHARI PRIVATE LIMITED
8.	U74899DL1989PTC034558	BRAINWAVE COMPUTERS PRIVATE LIMITED
9.	U74899DL1990PTC039901	CLASSIC CLOSURES PRIVATE LIMITED
10.	U51909DL1994PTC060101	NAPCO EXPORTS PRIVATE LIMITED

1	2	3
11.	U74899DL1994PTC061058	NUTAN ESTATS PRIVATE LIMITED
12.	U74899DL1995PTC064947	P R LEASING PRIVATE LIMITED
13.	U74899DL1995PTC065418	SHARWAN ADVERTISING PRIVATE LIMITED
14.	U74899DL1995PTC072352	AGGARWAL PLASTOCHEM PRIVATE LIMITED
15.	U74899DL1995PTC073665	LEVITE PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
16.	U22122DL1996PTC079606	TASK PAINTS INDIA PRIVATE LIMITED
17.	U51909DL1997PTC089915	BONJOUR EXPORTS PRIVATE LIMITED
18.	U70109DL1997PTC090790	WALKAN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
19.	U25190DL1997PTC091342	PRAHAR LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED
20.	U72900DL2000PTC107766	CONSILNET (INDIA) PRIVATE LIMITED
21.	U15332DL2002PTC114515	ORNATE REMEDIES PRIVATE LIMITED
22.	U63090DL2002PTC114853	SANCHI PORTFOLIO PRIVATE LIMITED
23.	U63040DL2002PTC115779	MATCHLESS GLASS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
24.	U28933DL2003PTC119949	SAMVIK METAFIN PRIVATE LIMITED
25.	U72900DL2003PTC121003	APT INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED
26.	U74140DL2003PTC121504	VNZ MANAGEMENT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
27.	U72900DL2003PTC123162	LAKSHAY CALLSOFT PRIVATE LIMITED
28.	U72900DL2003PTC123495	COMMVERGE SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
29.	U51909DL2004PTC126062	HARD ROCK EXIM PRIVATE LIMITED
30.	U70101DL2004PTC126597	ASK BUILDCON PRIVATE LIMITED
31.	U51909DL2004PTC127851	MANSA HUNG YUE IMPEX PRIVATE LIMITED
32.	U27106DL2004PTC129281	NARVANA STEEL UDYOG PRIVATE LIMITED
33.	U25202DL2004PTC129325	SHIV SHAKTI FOOT CARE PRIVATE LIMITED
34.	U18101DL2004PTC129479	D P GARMENTS PRIVATE LIMITED
35.	U18101DL2005PTC136924	JAI JAGDAMBA GARMENTS PRIVATE LIMITED
36.	U51909DL2005PTC137543	JIALAL EXPORTS PRIVATE LIMITED
37.	U51909DL2005PTC138421	ASHODEEP AGENCIES PRIVATE LIMITED
38.	U74899DL2005PTC139498	CORONET INFOTECH PRIVATE LIMITED
39.	U63023DL2005PTC140106	GREATER NOIDA INTEGRATED WAREHOUSING PRIVATE LIMITED (100% F.SUB.CO)
40.	U27107DL2005PTC141886	MAXIM STEELS PRIVATE LIMITED
41.	U00000DL2001PTC110023	SHIMEG GRAPHICS PRIVATE LIMITED
42.	U19121DL2005PTC133340	ESSEL BAGS PRIVATE LIMITED
43.	U17101DL2005PTC144237	VISHNU INFRATECH PRIVATE LIMITED
44.	U70109DL2006PTC149786	BARIK CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED.
45.	U70109DL2006PTC152165	B.V. BUILDCON PRIVATE LIMITED.
46.	U74140DL2006PTC147042	RSR INSURANCE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
47.	U64201DL2006PTC150603	GPS TELECOMMUNICATION PRIVATE LIMITED

1	2	3
48.	U70109DL2006PTC151535	ACHIEVER BUILD MART PRIVATE LIMITED
49.	U31108DL2006PTC154774	SATYAM HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED
50.	U74996DL2006PTC154833	SRI RAJ SANITATION PRIVATE LIMITED
51.	U92412DL2006PTC156678	TAFCON EXPO MEDIA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
52.	U72300DL2007PTC157834	OCEAN TECHNOSOFT PRIVATE LIMITED
53.	U85191DL2007PTC160717	KERALEEYA AYURVEDA PANCHAKARMA CENTRE PRIVATE LIMITED
54.	U45200DL2007PTC158137	ARN INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
55.	U45200DL2007PTC160650	SHAMA INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
56.	U17219DL2007PTC166382	VICTORY TECHFAB PRIVATE LIMITED
57.	U24233DL2007PTC163111	TECHNOVATORS ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
58.	U74140DL2007PTC164738	DNV SERVICES PRIVATE LIMITED
59.	U20296DL2007PTC163630	INSPIRE ART PRIVATE LIMITED
60.	U72300DL2007PTC169132	PROFICIENT E-SERVICES PRIVATE LIMITED
61.	U29268DL2007PTC171274	A TO Z SOURCING PRIVATE LIMITED
62.	U25200DL2007PTC171816	M2M POLYPAC PRIVATE LIMITED
63.	U65190DL2007PLC169878	GENETIC FINVEST LIMITED
64.	U17291DL2007PTC170312	TAMANNA GARMENTS PRIVATE LIMITED
65.	U27310DL2007PTC170309	MANAV BABBAR STEEL PRIVATE LIMITED
66.	U70109DL2007PTC171792	VESELKA REALTORS PRIVATE LIMITED
67.	U45400DL2007PTC171789	VESELKA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
68.	U51909DL2008PTC174808	CRAFT INDIA HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED
69.	U72900HR2008PTC037634	INNOVATRIX WEB SERVICES PRIVATE LIMITED
70.	U74120DL2008PTC174395	KAPTIVE CONCEPTS & SERVICES PRIVATE LIMITED
71.	U55101DL2008PTC174067	YOUNG SAN EDUCATIONAL & HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED
72.	U66000DL2008PTC175333	VALUE CARE INSURANCE BROKING PRIVATE LIMITED
73.	U74120DL2008PTC175639	HARSHA TELECOM PRIVATE LIMITED
74.	U74120DL2008PTC175519	NEXUS REALTECH PRIVATE LIMITED
75.	U74120DL2008PTC176237	SHWETA ELECTRIC MOTORS PRIVATE LIMITED
76.	U51109HR2008PTC037825	GRACE FINISHING MATERIALS PRIVATE LIMITED
77.	U62100HR2008PTC037873	ARC ONE AIR CHARTERS PRIVATE LIMITED
78.	U45208DL2008PTC179281	SUKHSHANTI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
79.	U63040DL2008PTC184097	SUSHANT TRAVEL EXPRESS PRIVATE LIMITED
80.	U74140DL2008PTC183986	ADA ENGINEERING CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
81.	U80301HR2008PTC038513	YOUNG ACHIEVERS EDUCATION PRIVATE LIMITED.
82.	U51109DL2008PTC184369	ACCESS TELELINK PRIVATE LIMITED
83.	U72200DL2009PTC187678	MY BIG MEDIA SERVICES PRIVATE LIMITED
84.	U80904DL2009PTC189754	AURA EDUCATION SERVICES PRIVATE LIMITED
85.	U72900HR2009PTC039029	JAI HANUMAN INFOTECH PRIVATE LIMITED

1	2	3
86.	U45204HR2009PLC039332	OK PLAY INFRASTRUCTURE LIMITED
87.	U72300DL2009PTC191130	GLV WEBDIGIX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
88.	U67190DL2009PTC195384	TRANZ CAP SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
89.	U31900DL2009PTC194412	AAREN CABLES PRIVATE LIMITED
90.	U72300DL2009PTC194102	MAVEN ESERVICES PRIVATE LIMITED
91.	U45200HR2009PTC039379	KAMAL ENGGCON PRIVATE LIMITED
92.	U74900DL2009PTC196045	SAMAST FACILITY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
93.	U74140DL2010PTC200889	QUADROPRO CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
94.	U63000DL2010PLC201603	PEAK TRAVELS LIMITED.
95.	U72200HR2010PTC040872	V A TECHNOSOFT PRIVATE LIMITED
96.	U74300DL2010PTC207536	PROFOCUS MEDIA PRIVATE LIMITED
97.	U51909DL2010PTC207926	BIGFRESH FOOD PROCESSING PRIVATE LIMITED
98.	U45204DL2010PTC208065	DAGAR CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
99.	U41000DL2010PTC209727	ATLANTIS AURORA WATER INDIA PRIVATE LIMITED
100.	U20211DL2010PTC211067	GARNET PLYWOODS PRIVATE LIMITED
101.	U72900DL2010PTC211813	SID XBORDER E SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
102.	U74999DL2011PTC212235	SKM SYSTEM CERTIFICATION PRIVATE LIMITED
103.	U51909DL2011PTC213871	MAXWELL CHEMPACK PRIVATE LIMITED
104.	U45400HR2011PTC042020	VKG INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
105.	U74999DL2011PTC212884	SR DESIGNTECH EXHIBITIONS PRIVATE LIMITED
106.	U24100DL2011PTC215696	PRARTHANA AGARBATTI PRIVATE LIMITED
107.	U74999DL2011PTC214238	COMPACT KITCHENWARES PRIVATE LIMITED
108.	U63040DL2011PTC214761	LOOK N BOOK PRIVATE LIMITED
109.	U70200DL2011PTC220528	DHANLAKSHMI PARKASH INFRACON PRIVATE LIMITED
110.	U52100DL2011PTC216914	VENKA TRADING PRIVATE LIMITED
111.	U74999DL2011PTC216581	E-SPORTS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
112.	U74140DL2011PTC219091	MVJ TRADING PRIVATE LIMITED
113.	U28113HR2011PTC043343	BHAWANA FERROUS COMPONENTS PRIVATE LIMITED
114.	U92400HR2011PTC043506	S M MULTI MEDIA PRIVATE LIMITED
115.	U14290DL2011PTC224254	EARTH STONE AND TILES PRIVATE LIMITED
116.	U72200DL2011PTC224964	VIPRA IT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
117.	U70100DL2011PTC225400	VIJAY JAI KRISHAN INFRASTRUCTURE MANAGEMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
118.	U71210DL2011PTC227219	APKON COMPONENTS INDIA PRIVATE LIMITED
119.	U93000DL2011PTC227341	JENNY CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
120.	U65992HR2012PTC044865	HOME CARE CHIT FUND PRIVATE LIMITED
121.	U93000HR2012PTC045099	METIS DENTAL PRIVATE LIMITED
122.	U74140DL2012PTC232299	ERFOLG VENIAM DESIGN PRIVATE LIMITED

1	2	3
123.	U80301HR2012PTC045382	QUICFAI KNOWLEDGE SERVICES PRIVATE LIMITED
124.	U72501DL2012PTC235354	DPA MEDIA PRIVATE LIMITED
125.	U51909DL2012PTC238486	FLUXLITE INDIA PRIVATE LIMITED
126.	U85100DL2012PTC238038	VINS LEE HEALTH AND FITNESS PRIVATE LIMITED
127.	U52600DL2012PTC236849	AGGARWAL LIFESTYLE PRIVATE LIMITED
128.	U45400DL2012PTC242547	CAMEO RESIDENCY INDIA PRIVATE LIMITED
129.	U70100DL2012PTC239751	PINNACLE AFFILIATES PRIVATE LIMITED
130.	U51900DL2012PTC241141	SHRI MATERIALS IMPEX PRIVATE LIMITED
131.	U51909DL2012PTC239609	MASHOR E-SHOP PRIVATE LIMITED
132.	U70109DL2012PTC244145	PRITHVEELINK INFRATECH PRIVATE LIMITED
133.	U74140HR2012PTC047108	XERION CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED
134.	U21000DL2012PTC243211	SYNDICATE TRADEX PRIVATE LIMITED
135.	U74140DL2012FTC246062	VETS NOW INDIA PRIVATE LIMITED
136.	U80903DL2012PTC244736	VANN INSTITUTIONAL ACADEMY PRIVATE LIMITED
137.	U92490DL2012PTC244602	DISCIPLE ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
138.	U31200DL2012PTC245828	ATLANTA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
139.	U63000DL2012PTC246090	NABIL TOURS SERVICES PRIVATE LIMITED
140.	U85100DL2013PTC248479	ALPHA CANCER CARE PRIVATE LIMITED
141.	U51101DL2013PTC248076	ALMONDZ IMPEX PRIVATE LIMITED
142.	U74900DL2013PTC249279	TALENT INFINITAS PRIVATE LIMITED
143.	U93090DL2013PTC252731	PICCADILY EXIM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
144.	U51900DL2013PTC254171	DIOPTRES OPHTHALMICS PRIVATE LIMITED
145.	U45200DL2013PTC255186	DEOL CITY BUILDTECH PRIVATE LIMITED
146.	U93030DL2013PTC262511	AMP THE CHOCOLATE VILLA INDIA PRIVATE LIMITED
147.	U15490DL2014PTC263430	RDM AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
148.	U51900DL2014PTC265009	THE MALGUDI TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
149.	U52390DL2014PTC264516	TODAY SHOPPINGS SERVICES PRIVATE LIMITED

P. L. Malik
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of following Companies

New Delhi-110019, the 19th November 2014

No. RoC/Delhi/9-14/560(5)/FTE-2011/8947—Notice is hereby given under subsection (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved:—

SL. No.	CIN	COMPANY NAME
1	2	3
1	U17111DL2000PLC108338	BANARAS DESIGN LIMITED
2	U74140DL2004PTC130636	FINOBLE ADVISORS PRIVATE LIMITED
3	U93000DL2010PTC211422	TIRUMALA MANPOWER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

1	2	3
4	U72900DL2000PTC105236	MEWAR INFOLINE COMPANY PRIVATE LIMITED
5	U80211DL2011PTC215752	M I S ACADEMY PRIVATE LIMITED
6	U74899DL1989PTC035491	CHIRAG AIRCONDITIONING PRIVATE LIMITED
7	U74900HR2013PTC050142	YASHNA LIFESTYLE PRIVATE LIMITED
8	U92490DL2010PTC201336	MUMBAI HORSE RACING PRIVATE LIMITED
9	U31908HR2010PTC040393	RANIO ENGINEERS PRIVATE LIMITED
10	U63010DL2010PTC203870	VICTORIA FOODS COLDSTORAGE PRIVATE LIMITED
11	U85100DL2014PTC266117	UNIVERSAL PURE CONSCIOUSNESS RESEARCH CENTER PRIVATE LIMITED
12	U67190DL2007PTC161308	SQAT CONSUMER GOODS SERVICES PRIVATE LIMITED
13	U72300HR2007PLC036770	QUANTUM EMBEDDED SYSTEMS LIMITED
14	U74900DL2009PTC189498	JALEBEE PRODUCTION PRIVATE LIMITED
15	U74899DL2000PTC105816	DNV EXPORTERS PRIVATE LIMITED
16	U74140DL2007PTC169726	KHOJ CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
17	U51395DL2013PTC247103	ENERGETIC INDIA PRIVATE LIMITED
18	U45400HR2012PTC047731	A P SAHANA PROMOTERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
19	U51909HR2006PTC036480	GOGNA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
20	U55101DL2006PTC144395	TRINITY DINERS PRIVATE LIMITED
21	U70101DL1999PTC102036	VMV ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
22	U00000DL2001PTC109987	VRA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
23	U45300DL2008PTC177028	KRUTI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
24	U51109DL2008PTC182978	PRAXIS TRADING PRIVATE LIMITED
25	U45201DL2005PTC136231	ASMITECH CONSTRUCTION AND CONSULTING PRIVATE LIMITED
26	U80903DL2010PTC205071	CAREERBRICKS LEARNING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
27	U74900DL2008PTC178986	KANU PERIPHERALS PRIVATE LIMITED
28	U36103DL2013PTC248127	REWA HANDICRAFTS PRIVATE LIMITED
29	U74120DL2008PTC181010	NEW ERA TRADEXPO PRIVATE LIMITED
30	U72900DL2012PTC238424	HYGEIA DIGITAL COMMUNICATION SERVICES PRIVATE LIMITED
31	U72300DL2008PTC177505	GALLANT COMPUTECH PRIVATE LIMITED
32	U74996DL2006PTC149928	SUTLAJ ENGINEERING PRIVATE LIMITED
33	U74994DL2007PTC161531	RASHMI DESIGNS PRIVATE LIMITED
34	U85110DL2006PTC146486	ASTHA HOSPITALS AND MEDICAL RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED
35	U29248DL2006PLC154702	TEMPOBUR ENGINEERING INDIA LIMITED
36	U45400DL2010PTC211490	PUMPKIN ENGINEERS PRIVATE LIMITED
37	U70109DL1997PTC089026	VIDYA CONTRACTORS AND MAINTENANCE PRIVATE LIMITED
38	U74999DL2009PTC187557	WADHWANI INVESTMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
39	U51109DL2010PTC198713	GLOW EXIM PRIVATE LIMITED

1	2	3
40	U31109DL2007PTC170153	Y.N. METALS PRIVATE LIMITED
41	U45400DL2010PTC211104	AMIT DEVELOPWELL PRIVATE LIMITED
42	U92490DL2013PTC249844	MIRCHY STUDIOS PRIVATE LIMITED
43	U74140DL2011PTC221817	ENHANCE RETAIL COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
44	U74300DL2011PTC218059	AKS OUTDOOR ADVERTISING PRIVATE LIMITED
45	U29220DL2009PTC194571	SUMEET CUTTING EDGE PRIVATE LIMITED
46	U40107DL2008PTC180712	ASAN ENERGY PRIVATE LIMITED
47	U72200DL2012PTC231444	NETWEZ SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
48	U63040DL2008FTC183105	ARP TRAVEL SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
49	U70100DL2012PTC238851	ARYAPUTRA DEVELOPERS AND PROMOTERS PRIVATE LIMITED
50	U24232DL2011PTC221123	ASTRO LIFE CARE PRIVATE LIMITED
51	U62100DL2012PTC239578	SHEEL AVIATION PRIVATE LIMITED
52	U51909DL2012PTC245372	SUDN FASHION PRIVATE LIMITED
53	U73100HR2010PTC041397	NANOVATE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
54	U74900DL2013PTC253080	TAX INDIA CONNECT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
55	U18204DL2007PTC157833	AMARKRISH GARMENTS PRIVATE LIMITED
56	U51909DL2010PTC201069	CLOUT BEAUTY PRIVATE LIMITED
57	U72200DL2011PTC226420	ESTEEM INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
58	U55101HR2013PTC049121	D. S. FORTUNE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
59	U80301HR2012PTC045381	SAPIENS EDUCARE PRIVATE LIMITED
60	U74300DL2012PTC241344	H M ADVERTISERS PRIVATE LIMITED
61	U93000DL2013PTC250113	WHITE LEAF CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
62	U31500DL2010PTC204470	R N LITES PRIVATE LIMITED
63	U85100DL2011PTC218738	ESHA HERBAL LIFESCIENCES LIMITED
64	U45400DL2008PTC173339	VALNILU INDIA PRIVATE LIMITED
65	U70109DL2010PTC205118	.HEATH BUILDING SERVICES PRIVATE LIMITED
66	U74899DL1993PTC052742	MEKHLA TRADERS AND FINANCIERS PRIVATE LIMITED
67	U63040DL2013PTC252827	SHUBHYATRA DESTINATION PRIVATE LIMITED
68	U40106DL2012PTC234260	JAAGRITI SOLAR PRIVATE LIMITED
69	U18204DL2007PTC167827	GOLDEN EDGE APPARELS PRIVATE LIMITED
70	U40300HR2013PTC049742	SUNBORNE ENERGY POWERTECH PRIVATE LIMITED
71	U51393DL2008PTC185563	SNS SHOW RACKS PRIVATE LIMITED
72	U32309DL1996PTC082742	SAARA ELECTRO ACOUSTICS PRIVATE LIMITED
73	U33110DL2008PTC178679	RAGHAV SURGICAL PRIVATE LIMITED
74	U27109DL2008PTC178874	AST TUBES PRIVATE LIMITED
75	U72200DL1995PTC074216	NUPUR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
76	U70100DL2010PTC204923	KMSS CORPORATE ESTATE AGENTS PRIVATE LIMITED
77	U01403DL2007PTC165458	JAIPUR GOLDEN AGRO-PRODUCTS PRIVATE LIMITED

1	2	3
78	U74899DL1989PTC038670	G.D. TECHNO PRIVATE LIMITED
79	U45400DL2007PTC163472	LAKESIDE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
80	U74999DL2010PTC201176	GEO COOLING TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
81	U74999DL2011PTC213910	LI2ME INDIA PRIVATE LIMITED
82	U17226DL2001PLC158413	VRINDAVAN OVERSEAS LIMITED
83	U72900HR2010PTC040868	BIRD WIRELESS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
84	U80900DL2010PTC211999	R. K. INSTITUTE FOR EDUCATION AND MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
85	U24239DL2003PTC120703	VAIDYA NANDRAM GIGRAJ CHAMRIA AYURVEDIC PRIVATE LIMITED
86	U72200DL2013PTC261038	SWIPR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
87	U65992DL2002PTC116252	PIPALA CHITS PRIVATE LIMITED
88	U93000HR2014PTC051832	SOLVENTURES AVIATION PRIVATE LIMITED
89	U31300DL2011PTC228836	PYMEN CABLES PRIVATE LIMITED
90	U51109DL2008PTC184250	EDGE TRADESERV PRIVATE LIMITED
91	U72300DL2008PTC181243	ANAND HUMAN SUPPLY PRIVATE LIMITED
92	U74899DL1995PTC068789	SHUDH PRODUCTS PRIVATE LIMITED
93	U72200DL2005PTC137200	GEP INFOTECH PRIVATE LIMITED
94	U80302DL2011PTC221207	CERESYNTH EDUSOFT PRIVATE LIMITED
95	U72200DL2005PTC138569	LIFE SOFT IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
96	U20296DL2008PTC184943	NIKI RAHUL CREATIONS PRIVATE LIMITED
97	U74999DL2011PTC212861	PALM SQUARE MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
98	U70101DL1997PTC090603	HARE KRISHNA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
99	U01400DL2010PTC204320	CALIBER FARM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
100	U51109DL2008PTC179411	COLUMBIA IMPEX INTEGRATORS PRIVATE LIMITED
101	U74899DL1989PTC036504	PAJERO EXPORTS PRIVATE LIMITED
102	U22110DL2012PTC229595	PUBLIC ASIA PRAKASHAN PRIVATE LIMITED
103	U99999DL1991PTC046536	NEROTECH ENGINEERING MACHINES PRIVATE LIMITED
104	U74900DL2010PTC200909	ANRISE BIOTECH PRIVATE LIMITED
105	U85100DL2011PTC218157	NEW AGE HEALTH-CARE SPECIALISTS PRIVATE LIMITED
106	U01500DL2012PLC237552	BANDHAN AGROCON LIMITED
107	U85100DL2010PTC204374	ANANDA HEALTH & YOGA PRIVATE LIMITED
108	U55101DL1997PTC085948	FRIENDLY ABODES PVT.LTD.
109	U51909DL2014PTC268203	JASMAN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
110	U63040DL2010PTC205964	PUGDANDI SUSTAINABLE TOURISM PRIVATE LIMITED
111	U72900DL2013PTC253952	DARE ACCELERATOR SERVICES PRIVATE LIMITED
112	U45200DL2007PTC171836	NG INFRATECH PRIVATE LIMITED
113	U74899DL1970PTC005399	AIMEX PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
114	U72900DL2005PTC136842	DIVINE INFO ONLINE PRIVATE LIMITED

1	2	3
115	U80302DL2011PTC219626	CLIMB UP EDUCATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
116	U17200DL2014PTC266426	RIVIERA MAISON PRIVATE LIMITED
117	U74900DL2009PTC189872	GOLDBIRD ADVISORS PRIVATE LIMITED
118	U74999DL2009PTC188409	NN SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
119	U45201DL2005PTC136347	N N BUILDWELL PRIVATE LIMITED
120	U18109HR2010PTC040235	APMAX CLOTHING PRIVATE LIMITED
121	U63000DL2011PTC213945	SUN GROW LOGISTICS PRIVATE LIMITED
122	U74140DL2008PTC182104	AXIS MANPOWER PRIVATE LIMITED
123	U34102DL1999PTC098732	DO BHAI AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
124	U74950DL2002PTC115700	ALLIED PRODUCTS PRIVATE LIMITED
125	U85191DL2012PTC235424	SS AYUROHERBAL PRIVATE LIMITED
126	U25190DL2008PTC172558	ROHAN TYRES PRIVATE LIMITED
127	U17121HR2007PTC037302	JH APPAREL PRIVATE LIMITED
128	U74140DL2008PTC182199	CAMBRIDGE POLICY RESEARCH PRIVATE LIMITED
129	U28910DL2010PTC211750	MAA BALA SUNDRI ROLLING MILLS PRIVATE LIMITED
130	U21099DL1970PTC005468	GOLDEN PAPER UDYOG PVT LTD
131	U22300DL2008PTC172797	PRIMETIME MULTIMEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
132	U51311DL2003PTC123247	RRJ MARKETING PRIVATE LIMITED
133	U74140DL2012PTC234532	CORPOTRADE GLOBAL PRIVATE LIMITED
134	U74899DL1992PTC049268	KIRAT EX-SERVICEMEN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
135	U51909DL2001PTC112858	OVERDRIVE AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
136	U80904DL2007PTC163674	EAZYWAYS ACADEMY PRIVATE LIMITED
137	U45203DL2001PTC112974	QUALICON CIVIL PRIVATE LIMITED
138	U74140DL2010PTC200849	EAZYWAYS MEDIA PRIVATE LIMITED
139	U93000DL2011PTC221267	OKIPAY BILLING SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
140	U74140DL2010PTC204733	WITS CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED
141	U64204DL2007PTC162664	SHAILS COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
142	U92100DL2010PTC204739	WITS ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
143	U80302DL2006PTC146690	GAURAV MANAGEMENT STUDIES PRIVATE LIMITED
144	U15543DL1998PTC092419	BLUE LITE AQUA PRODUCTS PRIVATE LIMITED
145	U28991DL2004PTC130396	TOUCH METALS PRIVATE LIMITED
146	U21029DL2006PTC151299	SAKURA PACKAGING PRIVATE LIMITED
147	U74899DL1995PLC071315	NESTOR BASIC DRUGS LIMITED
148	U74899DL1991PTC043312	SCAN BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
149	U80904HR2011PTC042824	SAVIOUR EDUCATION ACADEMY PRIVATE LIMITED
150	U72300DL2009PTC188339	S. R. INFOSOFTECH PRIVATE LIMITED
151	U93000DL2012PTC236080	LOTUS LUMINARIES PRIVATE LIMITED
152	U70109DL2006PTC155472	CHAUMUKHA MAHADEV BUILDERS PRIVATE LIMITED

1	2	3
153	U45400DL2008PTC173083	CRAFTMART EXIM PRIVATE LIMITED
154	U74899DL1992PLC050423	INDIA COTVEL LIMITED
155	U72900DL2006PTC150131	FINTIN BPO SERVICES PRIVATE LIMITED
156	U74899DL1993PTC055442	SHITUL ENGINEERING PRIVATE LIMITED.
157	U72200DL2000PTC103773	SUNSTAR NETWORK AND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
158	U74899DL1985PTC022766	CHARU FINANCIAL AND INVESTMENT CONSULTANTS PRIVATE LTD.
159	U55101DL2012PTC237742	AKC ESSENTIALS PRIVATE LIMITED
160	U74900HR2013PTC048293	SOINNET TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
161	U67120HR2012PTC047994	INFINITY ALGO INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
162	U32901DL2005PTC136503	SPECTACULAR DISPLAY SYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
163	U74900DL2012PTC237863	AKC HELPING HANDS PRIVATE LIMITED
164	U80301DL2012PTC236875	AKC INITIATIVE PRIVATE LIMITED
165	U22190DL2013PTC253563	CYBER MEDIA DARE PRIVATE LIMITED
166	U29113DL2012PLC245293	CAMTECH HEAVY ENGINEERING LIMITED
167	U63033DL2009PTC187696	LUXURY TOURS AND VACATIONS INDIA PRIVATE LIMITED
168	U31909DL2003PTC120061	GREEN PLANET EXIM PRIVATE LIMITED
169	U63000DL2011PTC218248	NCR TOURISM PRIVATE LIMITED
170	U63040DL2008PTC174910	IPSA TRAVELS PRIVATE LIMITED
171	U74140DL2010PTC206182	RMPASK CONSULTING PRIVATE LIMITED
172	U45400DL2007PTC163568	URSHA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
173	U72901DL2006PTC148492	VSR COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED.
174	U80221DL2006PTC156553	FINEMAN CONSULTING PRIVATE LIMITED
175	U25207DL1998PTC092760	LEGEND HOUSEWARES PRIVATE LIMITED
176	U21014DL2008PTC176664	SHREE TRM PACKAGINGS PRIVATE LIMITED.
177	U74899DL2003PTC122128	SUNDRAM POLYFAB PRIVATE LIMITED
178	U45200DL2010PTC206766	M V PROPMART (INDIA) PRIVATE LIMITED
179	U45204DL2011PTC218976	KPH BUILDCON PRIVATE LIMITED
180	U70100DL2012PTC238854	ARYAPUTRA BUILDERS PRIVATE LIMITED
181	U45400DL2012PTC230779	SAI KRISHNA LAND CONSOLIDATOR PRIVATE LIMITED
182	U51909DL2011PTC228644	GEMINATE TRADING SERVICES PRIVATE LIMITED
183	U93000DL2013PTC256283	DY ADS PRIVATE LIMITED
184	U74140DL2013PTC261512	MECH CREW SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
185	U51397DL2008PTC186171	NUGA BEST HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
186	U51226DL2012PTC229907	INDEX ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
187	U51909DL2012PTC232939	DANAEZ TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
188	U74140DL2011PTC224600	VICTOR FACILITY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
189	U18101DL2011PTC218061	ETASHA CLOTHING PRIVATE LIMITED
190	U51909DL2012PTC229770	STARWORT ENTERPRISES PRIVATE LIMITED

1	2	3
191	U72900DL2004PTC130044	PARV INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
192	U21093DL2007PTC159639	MAGOAN PAPERS PRIVATE LIMITED
193	U74140DL2008PTC172450	ALLONS CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED
194	U72200DL2011PTC221296	EK BOOND COMMERCE PRIVATE LIMITED
195	U45201DL2005PTC133880	MARWAR REALTORS PRIVATE LIMITED
196	U41000DL2005PTC143455	PENTA WATER TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
197	U45200DL2007PTC158512	TAPASAYA BUILDERS AND PROMOTERS PRIVATE LIMITED
198	U80903HR2008PTC038609	AMITAX EDUCATION INSTITUTE PRIVATE LIMITED
199	U51310DL2008PTC182786	ID UNDER GARMENTS PRIVATE LIMITED
200	U36100DL2009PTC196727	PYRAMID PRINTPACK PRIVATE LIMITED
201	U31909DL2005PTC139040	ATMA TECHNOCRATS PRIVATE LIMITED
202	U64200DL2012PTC243610	SITEL TELESERVICES PRIVATE LIMITED
203	U70109DL2009PTC195273	MGF DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
204	U70101DL2009PTC195270	MGF LAND DEVELOPMENT VENTURES PRIVATE LIMITED
205	U74900DL2009PTC195271	MGF POWER PRIVATE LIMITED
206	U70101DL2009PTC195277	MGF PRIME CITY PRIVATE LIMITED
207	U70109DL2009PTC195272	MGF PROPERTIES PRIVATE LIMITED
208	U55101DL2009PTC190004	WESTMAX HOTEL PRIVATE LIMITED
209	U45205DL2009PTC190005	WESTMAX INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
210	U45400DL2007PTC165808	OPULENT INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
211	U72200DL2005PTC134684	RANGOLI INFOTECH PARK PRIVATE LIMITED
212	U45400DL2007PTC165811	PRAGTEC INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
213	U45400DL2007PTC165809	AUGURY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
214	U45400DL2007PTC165810	CONFITECH INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
215	U74899DL1995PTC067083	DESHWAL AUTOMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
216	U51909DL2011PTC212247	AADI & TANISHA TRADING & SERVICES PRIVATE LIMITED
217	U24231DL2003PTC120734	ULTIMA SPORTS NUTRITION PRIVATE LIMITED
218	U92490DL2012PTC236631	LEKHI PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
219	U70101DL1997PTC090596	GREAT HARYANA ROAD LINES PRIVATE LIMITED
220	U70101HR2011PTC042256	ADISHI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
221	U72300DL2008PTC175867	NCR INFO ON WEB PRIVATE LIMITED
222	U45400DL2010PTC211727	GSY INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
223	U00374DL2005PTC137811	DAVINDERA AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
224	U72300DL2006PTC155530	MG SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
225	U70109DL2013PTC248828	FORTEX INFRATECH PRIVATE LIMITED
226	U72200DL2002PTC114204	PINEGROVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
227	U52190DL2006PTC151219	PITAMBRA IMPEX PRIVATE LIMITED
228	U93000DL2009PTC195811	BLUE BIRD CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED

1	2	3
229	U63040DL2013PTC252827	SHUBHYATRA DESTINATION PRIVATE LIMITED
230	U74900HR2009PTC038898	ORNAMENTAL HERBS PRIVATE LIMITED
231	U74140DL2010PTC198091	ASHV ALCOHOLS PRIVATE LIMITED
232	U01400DL2014PTC265728	COLUMBUS AGRIBIZ PRIVATE LIMITED
233	U80301DL2006PTC149954	NFP EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED.
234	U51311DL2001PTC113168	PRB MERCHANDISE AND INFOTECH PRIVATE LIMITED
235	U93000DL1997PTC085722	ABSOLUTE ADVERTISING AND MARKETING PRIVATE LIMITED
236	U70102DL2011PTC226200	ASCENSION ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
237	U74900DL2009PTC191630	ARNOV SALES PRIVATE LIMITED
238	U80904DL2007PTC163349	SAAKAR VIDYA PRIVATE LIMITED
239	U74999HR2011PTC043464	INTELLIAN PROFESSIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
240	U50102DL2014PTC264124	GAADI SALES PRIVATE LIMITED
241	U45200DL2008PTC179193	KRISHNADEV PROJECTS PRIVATE LIMITED
242	U21010DL2008PTC173613	ADDHAR GRAPHICS PRIVATE LIMITED
243	U74900HR2008PTC038292	AKASH GRAPHICS PRIVATE LIMITED
244	U45400DL2011PTC215295	GOODWILL PROPBUILD PRIVATE LIMITED
245	U74140DL2009PTC190217	BAH BAH FOODS PRIVATE LIMITED
246	U72501DL2000PTC107971	PKS IMPORT PRIVATE LIMITED
247	U74899DL2000PTC108876	SAINI PROMOTORS (INDIA) PRIVATE LIMITED
248	U51909DL2005PTC132637	SULOCHANA EXPORTS PRIVATE LIMITED

P. L. Malik
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of companies act, 1956 and of the following companies

JAIPUR – 302001, the 20th November 2014

No.ROC /JPR/560(5)/1290—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved:—

S. No.	Company No.	Company Name
01	039196	IVITAL HEALTHTECH SYSTEM PRIVATE LIMITED
02	037489	MR. MAX CONFECTIONERS PRIVATE LIMITED
03	021169	ARIHANT PLOT DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
04	037805	MOLASSES INDVISION PRIVATE LIMITED
05	037661	MAJESTY INDVISION PRIVATE LIMITED
06	037795	MAFFIN INDSOLUTION PRIVATE LIMITED
07	037577	SHREE BABA BUILD MART PRIVATE LIMITED
08	035420	CHAITANYA DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
09	040687	KRISHNA MAHIMA AGROTECH PRIVATE LIMITED
10	035835	MASCOT AUTOFAB PRIVATE LIMITED

11	030161	TYNOX BIOGENETICS PRIVATE LIMITED
12	011040	RAINBOW RECREATION LIMITED
13	029688	SKYLINE PLANNERS AND DESIGN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
14	028496	JETFLY AVIATION ACADEMY PRIVATE LIMITED
15	020770	HIGH SKY GEMS PRIVATE LIMITED
16	037199	KHOIWAL CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
17	034961	BHIWADI LUBES PRIVATE LIMITED
18	042196	GPC REALINFRA PRIVATE LIMITED
19	029698	VEE4ESS MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
20	014900	HEENA GRANI MARMO PRIVATE LIMITED
21	042254	ASR TRADE LINK PRIVATE LIMITED
22	043649	STRATEBIZ BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
23	027642	FILMTANTRA ACADEMY OF CINEMATICS PRIVATE LIMITED
24	042306	SPEED CLASSES PRIVATE LIMITED
25	040582	ANGIRA INFRATECH PRIVATE LIMITED
26	043530	JDCM ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
27	039523	STARLINK CYBER SECURITY PRIVATE LIMITED
28	025786	SHRIPURAM ESTATE PRIVATE LIMITED
29	035822	Shreenathji Natural Resources Private Limited
30	023977	THINKERS CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
31	032942	PARAMOUNT TRAINING ACADEMY PRIVATE LIMITED
32	042551	J.R. BHANDARI SONS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
33	026118	SHRI KODANA BHAIKAVNATH BUILDCON PRIVATE LIMITED
34	011769	CLIO POWER LIMITED
35	019634	SUNRISE BUILDTECH PRIVATE LIMITED
36	032509	SECURE DESIRE TRADEVISION PRIVATE LIMITED
37	041938	Ananta Infraengineers Private Limited
38	031148	MASCOT SUPERINFOTECH PRIVATE LIMITED
39	037108	SUKHSAGAR INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
40	039440	SENGAR AUTOGEARS PRIVATE LIMITED
41	030115	NAVGRAH JYOTISH KENDRA PRIVATE LIMITED
42	033170	ROYAL STAR BUILDCON PRIVATE LIMITED
43	025769	INMAXE LAND CRAFT PRIVATE LIMITED
44	030594	AMRI CLINICAL RESEARCH PRIVATE LIMITED
45	036121	MARS EXTRUSIONS PRIVATE LIMITED
46	028951	RUKHMANI RESORTS PRIVATE LIMITED
47	040931	KRISHNA KRIPA AGROTECH PRIVATE LIMITED
48	003473	SUPERIOR STEEL FOUNDRY PRIVATE LIMITED
49	034836	SAJ SKY HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
50	041458	SHAILENDRA PROPCON PRIVATE LIMITED

51	037524	SATYAM ITECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
52	012111	D.S FRUITS AND VEGETABLES PRIVATE LIMITED
53	034461	DIAMONDDREAM CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
54	036912	AYUSH BUILD MART PRIVATE LIMITED
55	024155	JHANJHARI AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED
56	019014	SAHODHAR PROPERTIES PRIVATE LIMITED
57	033571	Madhya Pradesh Trails Private Limited
58	033574	Maharashtra Trails Private Limited
59	038897	VINAYAKRAJ ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
60	018221	V.B. WOOD ART PRIVATE LIMITED
61	025021	SIDDHI VINAYAK ART PRIVATE LIMITED
62	034240	RHOMBUS ADVERTISING PRIVATE LIMITED

IMRAN A. SIDDIQUI
Asstt. Registrar of Companies
-cum- Asstt. Official Liquidator
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata, the 17th November 2014

No.ROC/WB/FTE/560/2014—Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 38 Companies have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved.

SL No.	CIN	Name of the Company
1	2	3
1	U29200WB2007PTC116554	N. S. ENGINEERING WORKS PRIVATE LIMITED
2	U17232WB1994PTC063950	HEMTEC EXPORTS PVT. LTD.
3	U74950WB2003PTC095963	BOSE PACKAGING PRIVATE LIMITED
4	U51909WB2012PTC188245	J M MEDICINE DISTRIBUTION PRIVATE LIMITED
5	U74140WB2012PTC181610	MOUSUMI CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
6	U93000WB2013PTC192259	MINDSEEK HR CONSULTING PRIVATE LIMITED
7	U51909WB2012PTC184658	SIDHIDATRI DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
8	U72200WB2000PTC092489	S B S INFOTECH PRIVATE LIMITED
9	U74900WB2012PTC188539	AR AGROCHEM PRIVATE LIMITED
10	U72200WB2005PTC104700	EASTERN TELE SERVICES PRIVATE LIMITED
11	U51909WB1994PTC062728	POORVA TREXIM PVT. LTD.
12	U45400WB2013PLC193840	ADIMURTI PROJECTS LIMITED
13	U80901WB2014PTC199698	PEDAGOGY EDUCATION PRIVATE LIMITED
14	U27100WB2008PTC126602	KARUNAMOYEE IRON & STEEL CASTING PRIVATE LIMITED

1	2	3
15	U50101WB2002PTC094352	L.K. MOTORS PRIVATE LIMITED
16	U85110WB2006PTC107667	EVIKA HEALTHCARE PVT LTD
17	U40107WB2009PTC133267	SANTINIKETAN BIKALPA SAKTI UTPADAN KENDRA PRIVATE LIMITED
18	U74999WB2012PTC182912	AH TIAM TANNERY PRIVATE LIMITED
19	U85100WB2012PTC187393	OPSONIN MEDICAL CENTRE PRIVATE LIMITED
20	U34300WB1987PTC042066	J D AUTOMOBILES PVT. LTD.
21	U74999WB2012PTC181496	SATABDI HERBAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
22	U51909WB2012PTC179389	VISHAWDHAM VYAPAAR PRIVATE LIMITED
23	U67120WB2012PLC183328	JS INSURANCE BROKING LIMITED
24	U64202WB2012PTC184443	GHORAI TELECOM PRIVATE LIMITED
25	U65999WB1995PTC075276	JUGNU FINANCIAL SERVICES PVT LTD
26	U25209WB1998PTC086998	SMV FRAGRANCES & BOTTLES PRIVATE LIMITED
27	U52390WB2010PTC151940	BHAWANIPUR DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
28	U74140WB2010PTC151939	BHAWANIPUR ADVISORY SERVICE PRIVATE LIMITED
29	U72300WB2013PTC194916	NORMANS INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
30	U74999WB2012PTC180369	SANJEEVANANAGAHATRE MERCANTILE PRIVATE LIMITED
31	U70109WB2012PTC184595	MAHATEJASE GRIHNIRMAN PRIVATE LIMITED
32	U74210WB2002PTC094238	NDG-POSFORD PRIVATE LIMITED
33	U67120WB1992PTC056556	AVADH CHEMICALS PRIVATE LIMITED
34	U45400WB2010PTC153894	SOUTHEND NIRMAN PRIVATE LIMITED
35	U01131WB2000PTC092244	P.P. AGRI IMPEX PRIVATE LIMITED
36	U72200WB2012PTC171626	ACEDREAMS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
37	U74900WB2012PTC188732	SAN DATA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
38	U65921WB1994PTC064731	REXON CREDIT PVT.LTD.

D. N. CHOWDHURY
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of Companies Act, 1956 and of following companies

Hyderabad, the 12th August 2013

No. RAP/Section 560(5)/Cos.169/2013/SR.DARA/2013 – Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the above companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved : -

Sl.No.	CIN	COMPANY NAME
01.	U93000AP2008PTC057367	SEANERGY PRO-SERVICES PRIVATE LIMITED
02.	U45400AP2008PTC059784	DECCAN HOUSING & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
03.	U92100AP1998PTC029161	GLOBAL INFOMED SERVICES PRIVATE LIMITED
04.	U24239AP2005PTC045959	LALIT LIVE SCIENCES PRIVATE LIMITED
05.	U45200AP1997PTC027336	SMD CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED

06.	U40107AP2009PTC066508	BRIGHTLIGHT ENERGY VENTURES PRIVATE LIMITED
07.	U24233AP2009PTC066004	SRI RAMADAS CHEMICALS PRIVATE LIMITED
08.	U01119AP2003PTC041364	V.S. UDYAN PRIVATE LIMITED
09.	U45200AP2005PTC045586	AAISHANI DESIGN VENTURES PRIVATE LIMITED
10.	U74999AP2007PTC052284	SOURCE ONE CONSULTING PRIVATE LIMITED
11.	U72200AP2005PTC047024	SENTIEN DATA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
12.	U65990AP1994PLC018379	INTEGRATED FINANCIAL AND INVESTMENT SERVICES LIMITED
13.	U92111AP1978PTC002381	JANAPRIYA FILMS PVT LTD
14.	U15142AP1984PTC004506	RAMAA COTTON AND OIL MILLS PVT LTD
15.	U67120AP2000PTC035763	AYESHA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
16.	U22110AP2005PTC047078	COSMIC GRAPHICS AND DESIGNS PRIVATE LIMITED
17.	U31300AP2003PTC040700	SRI MARUTHI RAGHAVENDRA METALS PRIVATE LIMITED
18.	U21012AP1991PTC013215	INDO GULF PAPER BOARD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
19.	U20219AP2004PTC044272	CORAL MODULAR FURNITURE PRIVATE LIMITED
20.	U14200AP2007PTC055370	GRAN MECHE IMPEX (INDIA) PRIVATE LIMITED
21.	U65910AP1993PTC016487	SWARNASREE FINANCE AND LEASING PVT LTD
22.	U73100AP2005PTC047760	BIOCIN BIO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
23.	U45200AP2003PTC040794	CHAITANYA MANJARI BUILDERS PRIVATE LIMITED
24.	U65921AP1994PTC017543	BANSAL FINANCIAL SERVICES PVT LTD
25.	U40104AP2008PTC058853	MANIRAM POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
26.	U24230AP1996PTC024228	REVATHI PHARMA PRIVATE LIMITED
27.	U55100AP1996PTC024193	AGRA-WALA (INDIA) PRIVATE LIMITED
28.	U52520AP1987PTC007984	SHIVLAL MOTILAL DISTRIBUTORS PVT LTD
29.	U31200AP2006PTC051503	ASIAN RENEWABLE ENERGY PRIVATE LTD
30.	U33119AP2004PTC043990	STAR TRENDS IN ANALYTICAL RESOURCES PRIVATE LIMITED
31.	U72200AP2001PTC037031	ZENON NET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
32.	U61100AP2003PTC042309	PROLINE SHIPPING AGENCIES PRIVATE LIMITED
33.	U70102AP1987PTC008029	DEVI ESTATES PVT LTD
34.	U70109AP1999PTC031911	PROS AND CONS ESTATES PRIVATE LIMITED
35.	U05004AP2001PTC036477	DEVI FEEDS PRIVATE LIMITED
36.	U74900AP2008PTC058519	PERKS (INDIA) PRIVATE LIMITED
37.	U65992AP1997PTC027067	PRANTIYA CHITS PRIVATE LIMITED
38.	U72200AP1996PTC025044	SYNFOLYNX BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
39.	U72200AP2007PTC055615	FOUR SQUARE SOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
40.	U67120AP1989PTC010707	RICHIMEN INVESTMENTS PVT. LTD.
41.	U24239AP2005PTC046238	PRASAD DRUGS PRIVATE LIMITED
42.	U21012AP2008PTC057507	JAI BHAVANI BAMBOO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
43.	U74999AP2008PTC058082	STACKLINE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
44.	U65992AP1982PTC003451	SHALIVAHAU CHIT FUND PVT LTD
45.	U15311AP2006PLC050962	PCS PAR BOILED RICE MILLS LIMITED

46.	U65992AP1994PTC017378	KIRANKRISHNA CHITS AND FINANCE PVT LTD
47.	U72200AP2005PTC048298	SOFTWARE NUCLEUS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
48.	U74210AP1978PTC002259	VISAKHA ENGINEERING SALES AND SERVICES PVT LTD
49.	U01222AP2004PTC044839	AROMA POULTRY PRODUCTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
50.	U72200AP2004PTC043647	PALLA IT OBJECTS PRIVATE LIMITED
51.	U45400AP2008PTC061117	SURYANARAYANA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
52.	U41000AP2010PTC070911	SOMA SONIPAT WATER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
53.	U05004AP2012PTC079395	AVANTI HATCHERIES PRIVATE LIMITED
54.	U72200AP1999PTC032527	M.S.NET COMMERCE PRIVATE LIMITED
55.	U18100AP2006PTC049367	VIJAYALAKSHMI MULTI-TEX COMPANY PVT LTD
56.	U15143AP1991PTC012622	SWARNA OILS PRIVATE LIMITED
57.	U05004AP2009PTC065054	BOUNTY HATCHERIES PRIVATE LIMITED
58.	U05004AP2011PTC072713	PSR AQUA PRODUCTS PRIVATE LIMITED
59.	U65993AP1996PTC022900	L.V.K. FINANCE PRIVATE LIMITED
60.	U74140AP1986PTC006300	FORTUNA MANAGEMENT CONSULTANTS PVT LTD
61.	U29200AP2009PTC065161	GSE(VIZAG) PRIVATE LIMITED
62.	U15419AP2002PLC039028	ANJANI BAKERY PRODUCTS LIMITED
63.	U21020AP2001PTC036229	KANHAN PAPERSS PRIVATE LIMITED
64.	U74210AP2008PTC059795	MAJOR FLOORING & INTERIORS PRIVATE LIMITED
65.	U74920AP1999PTC031459	KINNERA DETECTIVE AGENCY (INDIA) PRIVATE LIMITED
66.	U70102AP2008PTC057976	EOS REALTY PRIVATE LIMITED
67.	U65992AP1992PTC015153	PARIYADA CHIT FUNDS AND FINANCE PVT LTD
68.	U74999AP2006PTC050940	ACTIVE ECO CLIMATE INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
69.	U45400AP2007PTC054903	GR PROJECTS PRIVATE LIMITED
70.	U27109AP1982PLC003623	KAPADIA IRON AND STEEL CASTINGS LTD
71.	U65993AP1995PTC019347	NAVRAM INVESTMENT AND FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
72.	U52520AP1995PLC021344	GLOBAL TRUST EXPORTS LIMITED
73.	U92111AP1991PTC012229	SATYASREE MOVIES PVT. LTD.
74.	U24110AP1989PTC009960	NIPPON PLANT FOODS PVT LTD.
75.	U74140AP1992PTC013859	CHARTECH CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
76.	U01229AP2003PTC042164	SUNSPICE AGRO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
77.	U65992AP1972PTC001543	ANARKALI CHIT FUND PVT LTD
78.	U65992AP1982PTC003399	GOLCONDA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
79.	U65993AP1989PTC010219	SECUNDERABAD INVESTMENTS PVT. LTD.
80.	U55101AP2008PTC060948	GREEN TRENDS RESTAURANTS PRIVATE LIMITED
81.	U74999AP2011PTC074323	ASPER TRADES PRIVATE LIMITED
82.	U40108AP2010PTC067338	NEOSOLAR SYSTEMS PRIVATE LIMITED
83.	U18109AP2008PTC061869	ICON TRIMS PRIVATE LIMITED
84.	U65910AP1996PLC023433	DECCAN FINLEASE SERVICES INDIA LIMITED
85.	U45200AP2006PTC050645	RESILIENT INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

86.	U65993AP1900PTC004593	INTEL INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
87.	U51909AP2000PTC034672	GAGANSS MILLENNIUM EXPORTS PRIVATE LIMITED
88.	U65993AP1981PTC002963	AHALYA ESTATES PRIVATE LIMITED
89.	U74999AP2008PTC058212	SKYTE EXPORTS AND IMPORTS PRIVATE LIMITED
90.	U14102AP2011PTC072478	VISWATEJ GRANITES PRIVATE LIMITED
91.	U01119AP2009PTC064228	ABS SEEDS (INDIA) PRIVATE LIMITED
92.	U85310AP2005PTC048376	KIMS GREENLEAF HEALTHCARE SERVICES PRIVATE LIMITED
93.	U65921AP1994PTC018822	SARATH SAI CONSTRUCTIONS AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED
94.	U74994AP1996PLC024940	M.K.TEAM INTERIORS LIMITED
95.	U72200AP2004PTC042803	BIZTUNE SOFTWARE PRIVATE LIMITED
96.	U01111AP1995PLC020742	DECCAN GREEN FIELDS LIMITED
97.	U65993AP1991PTC013326	MONITA FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
98.	U29219AP1992PLC014383	PRUDHVI INTERNATIONAL LIMITED
99.	U65991AP1996PTC025899	SAI LEAFIN PRIVATE LIMITED
100.	U70102AP1989PTC010767	ANNAPOORNA BUILDERS PVT LTD
101.	U01403AP2008PTC060596	JAI SHREE NAVADURGA BIO-TECH PRIVATE LIMITED
102.	U17121AP2008PTC058485	AMRUT COTGIN PRIVATE LIMITED
103.	U01222AP1997PTC028500	DASARAJU EXIM PRIVATE LIMITED
104.	U93000AP2008PTC060882	PARKS ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
105.	U01110AP2006PTC051612	BHADRAGIRI FOOD PRODUCTS PRIVATE LTD.
106.	U24239AP2005PTC047753	INTERSINT LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
107.	U65991AP1990PLC011371	SRI SATHYA SAI BENEFIT SOCIETY LIMITED
108.	U74140AP2006PTC048761	PENNYWISE ACCOUNTING SERVICES PRIVATE LIMITED
109.	U55101AP1992PLC014007	P.S.R. HOTELS PRIVATE LIMITED
110.	U18101AP1991PLC012609	VIJAY APPARELS LIMITED
111.	U15142AP2005PTC045976	SANKARA NAGAR BIO FUELS PRIVATE LIMITED
112.	U85110AP2004PTC044638	DECCAN SURGICALS PRIVATE LIMITED
113.	U67120AP1995PLC019361	KASHYAP SECURITIES LIMITED
114.	U65993AP1995PLC019862	CHITTURI FINANCE AND INVESTMENTS LIMITED
115.	U10200AP1995PTC018574	MERICLONE BIOLUK PRIVATE LIMITED
116.	U45403AP2002PTC039235	SIMPLY SLEEK INTERIORS PRIVATE LIMITED
117.	U24219AP1990PTC011295	VIP SALES AND PEST CONTROL COMPANY PVT LTD.
118.	U45200AP2004PTC043057	V V S HOMES PRIVATE LIMITED
119.	U24134AP1990PTC011794	ZEN POLYMERS PRIVATE LIMITED
120.	U74999AP1988PTC008524	JAY NETS P. LTD.
121.	U29297AP2003PTC040693	P.V.K. WATER TEAM PRIVATE LIMITED
122.	U22110AP2006PTC050209	RED CLOVER EDUCATION CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
123.	U24233AP2007PTC056379	FINE DRUGS & INTERMEDIATES PRIVATE LIMITED
124.	U62200AP2008PTC058746	SRI VIGNESHWARA AIR LINKS PRIVATE LIMITED
125.	U93000AP2009PTC062809	ARIEAN CONSULTING PRIVATE LIMITED

126.	U74900AP2008PTC060925	AYITHI ENGINEERING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
127.	U24219AP1997PTC028418	NAVEEN FERTILISERS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
128.	U63022AP2005PTC045653	DEVI COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
129.	U74900AP2009PTC065262	JOBHIKE RECRUITMENTS PRIVATE LIMITED
130.	U45200AP2008PTC058317	ROCKET RISE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
131.	U31900AP2011PLC073303	ASABHANU PLUTON ENGINEERING LIMITED
132.	U51909AP2006PTC050140	REKHA EXIM PRIVATE LIMITED
133.	U45203AP2008PTC058480	ARKA INFRAVENTURES INDIA PRIVATE LIMITED
134.	U65992AP1995PTC019814	RAVIPRIYA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
135.	U85100AP2010PTC066568	AJ MEDSOFT PRIVATE LIMITED
136.	U67100AP2007PTC055609	SREE SANJEEVINI ENTERPRISES INDIA PRIVATE LIMITED
137.	U45203AP2008PTC060370	TEJASRI INFRASTRUCTURES INDIA PRIVATE LIMITED
138.	U36104AP2009PTC064171	VIZAG FOAM PRIVATE LIMITED
139.	U65990AP1991PTC013019	CITYLINE INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
140.	U66010AP2001PTC037874	SS INSURANCE AGENCIES PRIVATE LIMITED
141.	U25200AP1984PTC004591	LOHIA PLASTICS PVT LTD
142.	U55101AP2011PTC072865	PRIME PHOENIX RETREATS AND HOSPITALITY (AP) PRIVATE LTD
143.	U72200AP2000PTC033995	WIZDEN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
144.	U45209AP2007PTC055487	SUMERU HITECH PROJECTS PRIVATE LTD
145.	U45200AP1993PTC016718	AFRA CONSTRUCTION PVT LTD
146.	U72200AP2006PTC051657	INPROFY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
147.	U15124AP2008PTC061519	INDIAWEALTH MARINE FARMS PRIVATE LIMITED
148.	U52520AP2004PTC044168	SUN SEVEN ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
149.	U45200AP2004PTC044489	MAYURI MULTIPLEX PRIVATE LIMITED
150.	U27106AP2001PTC037138	CLOCK STEELS PRIVATE LIMITED
151.	U51909AP2011PTC072847	VELLANKI STATIONARY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
152.	U70102AP2007PLC052434	CHAMATKAR HOMES LIMITED
153.	U32204AP1999PTC032180	AGNI CABLE PRIVATE LIMITED
154.	U65910AP1994PLC017423	VIKRAMASHILA FINANCE AND LEASING LIMITED
155.	U01119AP2008PTC058580	VIVOZANT BIOSCIENCES PRIVATE LIMITED
156.	U74210AP2004PTC043525	VARMA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
157.	U01119AP2002PTC038917	PAVITHRA SEEDS PRIVATE LIMITED
158.	U45200AP1999PTC031083	VASISTA TEXTILES AND PROMOTERS PRIVATE LIMITED
159.	U66000AP2012PTC081356	FAUJNET SURAKSHA PRIVATE LIMITED
160.	U74900AP2007PTC054666	HL ELECTRICAL INSULATORS PRIVATE LIMITED
161.	U52520AP2002PTC039409	DECISIVE MARKETING PRIVATE LIMITED
162.	U74300AP2003PTC041333	CLICKZ COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
163.	U74900AP2008PTC059594	MEGAVALUE MARKETING PRIVATE LIMITED
164.	U74120AP2006PTC051387	PEGASUS FOOD & BEVERAGES PRIVATE LIMITED
165.	U01403AP2011PLC076415	SHAMANTAA AGRO LIMITED

166.	U01119AP2005PTC048555	VIJAYA ANIMAL NUTRITIONS PVT LTD
167.	U72200AP2006PTC050157	I TABS (INDIA) PRIVATE LIMITED
168.	U63022AP2002PTC038316	SREE AMRUTHALINGAESWARA COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
169.	U45200AP2007PTC052989	PKP INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED

SHASHI RAJ DARA
Dy. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of Companies Act, 1956 and of following companies
Hyderabad, the 1st October, 2013

No. RAP/Section 560(5)/Cos.131/2013/SR.DARA/2013—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the above companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved: -

Sl.No.	CIN	COMPANY NAME
1	2	3
01	U45203AP2011PLC073071	SEW DSY TOLLWAYS LIMITED
02	U14200AP2007PTC055284	TRUESTONE MINERALS PRIVATE LIMITED
03	U92132AP1994PTC017620	CENTRE CHANNEL PVT LTD,
04	U74140AP2004PTC042775	RAJ AND CO ADVISERS PRIVATE LIMITED
05	U74900AP2008PTC061885	LINCHPIN AUTOMATION PRIVATE LIMITED
06	U70102AP2009PTC062503	SRINIVASA PROJECTS PRIVATE LIMITED
07	U72200AP1999PTC032168	MEDITIMES (INDIA) PRIVATE LIMITED
08	U45209AP2010PTC069813	JALASANDHANA INFRA SERVICES PRIVATE LIMITED
09	U93000AP2009PTC064369	SRI ADILAKSHMI COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
10	U45209AP2010PTC066870	ADICORE INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
11	U85110AP2003PTC041493	PRN MEDICAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
12	U74200AP2009PTC065648	SUGATHI ENGINEERING CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
13	U24233AP2009PTC063444	MB LIFECARE PRIVATE LIMITED
14	U72200AP2011PTC072242	AQUILA SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED
15	U35900AP2008PTC058501	PMR WAREHOUSING PRIVATE LIMITED
16	U72900AP2008PTC061893	VIKKY'S TECHNOLOGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
17	U40104AP2008PTC058853	MANIRAM POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
18	U72200AP2005PTC048462	AFFABLE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
19	U74900AP2008PTC058712	EM AR TREASURY SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
20	U74999AP1991PTC012903	SRI VENKATESWARA TURBO PROFILES PRIVATE LIMITED
21	U67120AP1987PTC007200	FENO INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
22	U27100AP2008PTC058151	SRI SAI VINAYAKA STEELS PRIVATE LIMITED
23	U85100AP2009PTC065237	BAY VIEW HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
24	U14291AP1982PTC003705	SOUTHERN DIAMOND PRODUCTS PVT LTD
25	U74999AP2011PTC074155	BLUE BAY TERMINALS PRIVATE LIMITED
26	U55101AP2002PLC039220	EURO ROOMS DIRECT SOLUTIONS LIMITED

1	2	3
27	U27100AP2008PTC058346	DUCCAN ALLOY CASTINGS PRIVATE LIMITED
28	U28932AP2008PTC060291	NIPPON CUTTING TOOLS PRIVATE LIMITED
29	U40300AP2010PLC067850	CHAYA ADITHYA ENERGY LIMITED
30	U22300AP2004PTC044510	STIC-ON PRINT PACK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
31	U15419AP2002PLC039028	ANJANI BAKERY PRODUCTS LIMITED
32	U45203AP2006PTC052017	NELSRI PROPERTIES PRIVATE LIMITED
33	U73100AP2011PTC076387	NOVITAS RESEARCH LABS PRIVATE LIMITED
34	U45400AP2009PTC062928	LE-SUNNIT REALTORS AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
35	U45201AP1994PTC018086	BHASKARA HOUSING PVT LTD
36	U65993AP2006PTC048872	LANPRO TRUSTEE COMPANY PVT LTD
37	U31401AP2009FTC064492	CRAIG & DERRICOTT (INDIA) PRIVATE LIMITED
38	U40108AP2010PTC067338	NEOSOLAR SYSTEMS PRIVATE LIMITED
39	U40300AP2010PTC067617	RAGHU SOLAR POWER PRIVATE LIMITED
40	U93000AP2009PTC065964	LN CONSULTANCY AND SERVICES PRIVATE LIMITED
41	U18109AP2008PTC061869	ICON TRIMS PRIVATE LIMITED
42	U34102AP2004PTC042860	TAPASVI MOTORS PRIVATE LIMITED
43	U72900AP2011PTC073111	AJNOHA WEB TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
44	U72200AP2005FTC046225	NUELIGHT INDIA SEMICONDUCTORS PRIVATE LIMITED
45	U74210AP1984PTC004426	SPECTRA ENGINEERING CO PVT LTD
46	U45400AP2008PTC057249	PADMAVATI VILLAS PRIVATE LIMITED
47	U72200AP2005PTC048330	SUSTAINLANE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
48	U72200AP2005PTC047802	IGLILY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
49	U65993AP1981PTC002963	AHALYA ESTATES PRIVATE LIMITED
50	U65910AP1996PTC024908	RATHI BULK CARRIER PRIVATE LIMITED
51	U72200AP2011PTC076666	ABG TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
52	U40106AP2010PTC070613	BHARATH MULK SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED
53	U72200AP1998PTC030328	VIKAS INSTITUTE OF SOFTWARE APPLICATIONS PRIVATE LIMITED
54	U45200AP2002PTC039789	BAR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
55	U72200AP2007PTC052749	MANEGARI SOFTWARE SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
56	U72200AP2009PTC065410	AVA EASY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
57	U72200AP2011PTC074968	AR CUBE ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
58	U65992AP1996PTC024378	SRI SAISUNDER CHIT FUND PRIVATE LIMITED
59	U72200AP2006PTC050662	BRAHMA CYBERTEK SERVICES PRIVATE LIMITED
60	U01122AP1988PTC008996	SOKEO INFRASTRUCUTE PRIVATE LIMITED
61	U31908AP2010PTC071396	EASYLIFE KITCHENS (INDIA) PRIVATE LIMITED
62	U45200AP2007PTC055453	MAROJU ENGINEERS AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
63	U70102AP2007PTC056098	EKA REAL ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

1	2	3
64	U15203AP2008PTC060880	PARK DAIRY ADVENTURES PRIVATE LIMITED
65	U99999AP1994PTC018428	R S PAPES PRIVATE LIMITED
66	U74999AP2009PTC065560	B V DESIGNERS AND JEWELS INDIA PRIVATE LIMITED
67	U72200AP2008PTC058005	MAIOR IT CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
68	U45209AP2008PTC057943	SCOGEM INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
69	U24120AP2008PTC061757	MEGHA FERTILIZERS AND CHEMICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED
70	U45400AP2010PTC068755	SHRI NANDANA INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
71	U24233AP2010PTC070641	MELANGE PHARMA PRIVATE LIMITED
72	U40300AP2010PTC070021	VASAVI MAHTOLI GAS POWER PLANT PRIVATE LIMITED
73	U55101AP2008PTC057845	ICON HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
74	U40300AP2012PTC080060	AUSTER ENERGY PRIVATE LIMITED
75	U66000AP2009PTC066130	SUNRISE ASSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
76	U72900AP2012PTC080163	E ANIMEDIA SOLUTIONS HYDERABAD PRIVATE LIMITED
77	U74999AP2008PTC057127	MNR CAREER & BEYOND PRIVATE LIMITED
78	U24219AP1990PTC011295	VIP SALES AND PEST CONTROL COMPANY PVT LTD.
79	U28999AP2004PTC043601	SCENIC ROUTE INDIA PRIVATE LIMITED
80	U70102AP2008PTC060208	GREENFIELDS LANDSCAPE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
81	U72900AP2004PTC042415	ANJI SYSTEMS PRIVATE LIMITED
82	U74900AP2009PTC065262	JOBHIKE RECRUITMENTS PRIVATE LIMITED
83	U72200AP2005PTC047194	CHARVAKAS INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
84	U45203AP2008PTC058480	ARKA INFRAVENTURES INDIA PRIVATE LIMITED
85	U72200AP2011PTC076738	VARISTA IT SERVICES PRIVATE LIMITED
86	U72200AP2007PTC053858	MAST MINDS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
87	U24100AP2009PTC062543	SREEKARA ORGANICS PRIVATE LIMITED
88	U85100AP2010PTC066568	AJ MEDSOFT PRIVATE LIMITED
89	U45200AP2005PTC047580	SPUR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
90	U74900AP2010PTC070029	LA VOVOS ARCHITECTURAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
91	U65991AP1995PLC020085	SRICHAKRA PERMANENT FUND LIMITED
92	U92130AP2010PTC068487	INTERCONTINENTAL MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED
93	U40300AP2008PTC061807	ASTHA GREEN ENERGY PRIVATE LIMITED
94	U15400AP2010PTC070432	VAISHNODEVI VITAL NUTRIENTS PRIVATE LIMITED
95	U55101AP2008PTC057432	D H V FORTUNE HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
96	U67120AP2008PTC061518	INDIAWEALTH SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED

1	2	3
97	U24130AP1993PTC015986	VENKY PLASTICS PVT. LTD.
98	U72200AP1999PTC031788	EPLUS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
99	U72900AP2008PTC060889	AURIGA ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
100	U70102AP2007PLC052434	CHAMATKAR HOMES LIMITED
101	U72900AP2010PTC068597	CODESPARK SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
102	U72300AP2012PTC080610	FAUJNET TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
103	U70102AP2007PTC052666	SAFE HEAVEN LAND MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
104	U72200AP2005PTC048216	SYNA-G TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
105	U63013AP1995PTC020927	ANVIL TRANS SERVICES PRIVATE LIMITED
106	U74900AP2007PTC054939	SHETH SUNDER BIOMEDITEC PRIVATE LIMITED
107	U45400AP2007PTC055591	KARISHMA HOMES PRIVATE LIMITED
108	U24129AP2005PLC045110	VICTOR AGRI INDUSTRIES LIMITED
109	U45200AP2009PLC064577	NAVSAKTI INFRASTRUCTURE LIMITED
110	U70102AP1987PLC007819	RECHARLA FOUNDATION LTD
111	U01212AP1994PTC017883	RAGHU MILK PRODUCTS PVT LTD,
112	U93000AP2008PTC056935	KELLTON INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
113	U01119AP2007PTC055936	SKYLARK AGRICULTURAL FARMS PRIVATE LIMITED
114	U01229AP1987PTC007861	PRAGATHI HATCHERIES PVT LTD
115	U66010AP2011PTC072307	SYNERGY INSURANCE BROKING & RISK MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
116	U74140AP2002PTC039809	BOYALLAS CONSULTING PRIVATE LIMITED
117	U70102AP2005PTC047500	KINNERA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
118	U74999AP2010PTC069046	FINEDU SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
119	U51397AP2007PTC054128	SRIMUKHA TEKNO MARK PRIVATE LIMITED
120	U24239AP2002PTC038553	SIGMA ALCHEMIE PRIVATE LIMITED
121	U45202AP2007PTC056250	FUTUREAGE PARKING PRIVATE LIMITED
122	U85110AP2003PTC042152	UCH HERITAGE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
123	U70102AP2008PTC060995	T & C INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
124	U72100AP1998PTC029692	PACE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
125	U80901AP2008PTC061175	STUDYHORIZON CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
126	U40101AP2008PTC060306	TESLA ENERGY VENTURES PRIVATE LIMITED
127	U55101AP2007PTC052847	PVP RESORTS PRIVATE LIMITED
128	U70102AP2007PTC052678	MAGNUM OPUS REAL ESTATES AND PROJECTS PRIVATE LIMITED
129	U70102AP2007PTC052626	SPUTNIK REAL ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
130	U72200AP2007PTC056036	INTELLIGENT DIMENSIONS PRIVATE LIMITED
131	U40300AP2010PTC067272	PRISM ENERGY AND AUTOMATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
132	U72200AP2007PTC056787	BLUENOG SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

SHASHI RAJ DARA
Deputy Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of Companies Act, 1956 and of following Companies

Hyderabad, the 01st January 2014

No. RAP/Section 560(5)/Cos.71/2013/SR.DARA/2013—Notice is hereby given pursuant to sub/section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the above companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved :-

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME	Date of 560(5)
1	2	3	4
01	U27107AP1996PLC024280	LEVIN STEELS LIMITED	07/11/2013
02	U92200AP2007PTC052754	NEO MEDIA PRIVATE LIMITED	07/11/2013
03	U05005AP2003PTC040457	SRILAKSHMISARAN AGRO AND AQUA FARMS PRIVATE LIMITED	01/01/2014
04	U72200AP2006PTC051411	KAAVA SOFTWARE PRIVATE LIMITED	01/01/2014
05	U72200AP2007GAT055180	AYLIT SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	07/11/2013
06	U67120AP1987PTC007200	FENO INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	19/08/2013
07	U45400AP2010PTC070139	HIMAJA INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED	07/11/2013
08	U63022AP2006PTC049954	JOSHITHA DEEP COLD STORAGE PRIVATE LIMITED	07/11/2013
09	U16001AP1992PTC014450	SRI VENKATARAMANA TOBACCO COMPANY PRIVATE LIMITED	07/11/2013
10	U74210AP1994PTC017752	VEMSE PROJECTS PRIVATE LIMITED	07/11/2013
11	U72200AP2009PTC065883	RED-GEM SOFTECH PRIVATE LIMITED	07/11/2013
12	U27100AP2010PLC069543	SSG ALLOYS LIMITED	01/01/2014
13	U40101AP2009PTC064738	AKUMA INDUSTRIAL & POWER PROJECTS COMPANY PRIVATE LIMITED	01/01/2014
14	U65922AP1984PLC004453	PIONEER HOUSING FINANCE LTD	07/11/2013
15	U28113AP2010PTC069872	INVENTURE METAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED	01/01/2014
16	U74999AP2009PTC064902	S MEDIA WORKS PRIVATE LIMITED	01/01/2014
17	U40105AP2007PTC053067	SNOWPEAK ENERGY PRIVATE LIMITED	01/01/2014
18	U70109AP2013PTC089368	MADHUBAN HOMES PRIVATE LIMITED	01/01/2014
19	U24110AP1994PTC017481	VIJAYAVANI CHEMICALS PVT LTD	01/01/2014
20	U01120AP1964PTC001028	THE SOUTH INDIA PEASANTS FARMING AND MARKETING SYNDICATE PVT LTD	07/11/2013
21	U65993AP1996PTC025767	SAKA CREDIT CAPITAL PRIVATE LIMITED	07/11/2013
22	U55101AP2010PTC070731	SWINI HOTELS AND TOWERS PRIVATE LIMITED	07/11/2013
23	U74900AP2007PTC054718	NINE GEMS AND JEWELLERY TRADING PRIVATE LIMITED	07/11/2013
24	U45200AP2008PTC060282	BLUEFOREST RESORTS PRIVATE LIMITED	01/01/2014
25	U29120AP1987PTC007910	EMMAR INDUSTRIAL VALVES PVT LTD	07/11/2013
26	U11101AP2008PTC058407	VENNTURA BIO FUEL (INDIA) PRIVATE LIMITED	07/11/2013
27	U73100AP2008PTC058541	INDIGENESE BIOTECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	01/01/2014
28	U01122AP2006PTC049023	SREE VASANTI NURSERIES PRIVATE LIMITED	01/01/2014
29	U01111AP2006PTC049011	SREE VAMSADHARA HORTICULTURE PRIVATE LIMITED	01/01/2014
30	U70102AP2009PTC062438	HITOP INNOVATIVE REALTORS PRIVATE LIMITED	07/11/2013
31	U74999AP2008PTC058123	VISION FISCAL SERVICES & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	01/01/2014
32	U45209AP2008PTC058607	ARYAMITRA INFRATECH PRIVATE LIMITED	01/01/2014
33	U72200AP1995PLC020847	EAST INDIA RESORCINOL TECHNOLOGY LIMITED	01/01/2014
34	U70102AP2007PTC056219	SRIDHARVISHNU REAL ESTATE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	07/11/2013
35	U45209AP2011PTC077111	SUPERBOND BUILDERS PRIVATE LIMITED	01/01/2014
36	U27109AP2006PTC049538	BINJRAJKA PROFILES PRIVATE LIMITED	01/01/2014

1	2	3	4
37	U93000AP2008PTC061405	NEXUS9 PERSONAL FINANCIAL PLANNERS PRIVATE LIMITED	07/11/2013
38	U24230AP2009PTC063118	MEDICALEDGE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	07/11/2013
39	U15419AP2010PTC068019	BURGEROLA FOODS PRIVATE LIMITED	07/11/2013
40	U72900AP2009PTC062958	SUNPAC SOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	07/11/2013
41	U24110AP1991PTC012713	KRISHIVAL CHEMICALS PRIVATE LIMITED	07/11/2013
42	U74140AP1994PTC018981	TEJAS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	07/11/2013
43	U01122AP2005PTC048156	ABHYUDAYA AGRO TECH AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED	07/11/2013
44	U72200AP2006PTC051280	FULLPOWER TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED	07/11/2013
45	U72200AP1997PTC026770	CD TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	07/11/2013
46	U17121AP1994PTC019059	VIJAYA GANESH FABRICATORS PRIVATE LIMITED	01/01/2014
47	U74300AP2008PTC057237	BHAGYANAGAR MEDIA SERVICES PRIVATE LIMITED	07/11/2013
48	U72200AP2001PLC037034	AASEAWHEEL NETWORK LIMITED	01/01/2014
49	U72200AP1998PTC029704	INSIGHT SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED	07/11/2013
50	U45209AP2008PTC057707	MAYTAS HILL COUNTY PRIVATE LIMITED	07/11/2013
51	U45209AP2008PTC057710	MAYTAS REALTORS PRIVATE LIMITED	07/11/2013
52	U74999AP2008PTC058276	XING ENGINEERS PRIVATE LIMITED	01/01/2014
53	U55101AP2008PTC058383	CYBERCITY HOTELS (INDIA) PRIVATE LIMITED	06/11/2013
54	U27109AP2006PTC049384	MOKEN ENGINEERING PRIVATE LIMITED	07/11/2013
55	U01119AP2010PTC070057	OSTARA AGRISCIENCES PRIVATE LIMITED	01/01/2014
56	U24110AP1991PTC012763	SWATHI DRUG AGENCIES PRIVATE LIMITED	01/01/2014
57	U74120AP2011PTC073755	LOAM CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	01/01/2014
58	U72200AP2005PTC046106	SWINSOFT SYSTMES PRIVATE LIMITED	01/01/2014
59	U45200AP2010PTC067105	KRISHNACON PROJECTS PRIVATE LIMITED	01/01/2014
60	U01403AP2009PTC062506	INDU GREEN FIELDS PRIVATE LIMITED	07/11/2013
61	U72200AP1997PLC026328	INNET TECHNOLOGIES LIMITED	07/11/2013
62	U72200AP2005PTC048202	NISHTAA SYSTEMS PRIVATE LIMITED	01/01/2014
63	U45200AP2007PLC053109	SARAS INFRASTRUCTURE PROJECTS LIMITED	01/01/2014
64	U70102AP2012PTC083914	TRIDENT HAPPY NIVAS PRIVATE LIMITED	07/11/2013
65	U74120AP2007PTC052574	GODAVARI INFRACON PRIVATE LIMITED	07/11/2013
66	U45400AP2007PTC053489	PVP MEGAPOLIS INDIA PRIVATE LIMITED	07/11/2013
67	U27103AP2005PTC048205	ASACO METAL PROCESSING INDIA PRIVATE LIMITED	07/11/2013
68	U74120AP2012PTC083290	BEEMTECH METALLURGIES PRIVATE LIMITED	01/01/2014
69	U01119AP2009PTC064417	SRKR PET CARE PRIVATE LIMITED	07/11/2013
70	U72200AP2011PTC076406	VENTIFACT SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	01/01/2014
71	U40105AP2013PTC086687	PRASASTHI RENWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED	01/01/2014

SHASHI RAJ DARA
Deputy Registrar of Companies
Andhra Pradesh

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in